



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 27] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 7—जुलाई 13, 2012 (आषाढ़ 16, 1934)

No. 27] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 7—JULY 13, 2012 (ASADHA 16, 1934)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public
Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the
Government of India]

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110069, दिनांक 01 जून 2012

सं. ए-19016/01/2011-प्रशा. I--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 20 मार्च 2012 के का. ज्ञा. सं. 3/3/2011-सी एस-II (क) के तहत के. सचि. आ. से. की चयन सूची 2010 के प्रधान निजी सचिव (प्र. नि. सचि.) ग्रेड के पद पर नियमित पदोन्नति होने तथा सं. लो. से. आ. के के. सचि. आ. संवर्ग में उनका नामांकन होने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति, के सचि. आ. से संवर्ग के प्रधान निजी सचिव (प्र. नि. सचिव) श्री अशोक कुमार को दिनांक 20.03.2012 के पूर्वाह्न से अर्थात् का. एवं प्र. वि. के का. ज्ञा. की तारीख से आगामी आदेशों तक संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में 6,600/- रु. के ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड-3 (15,600--39,100/- रु.) में के. सचि. आ. से. के. प्रधान निजी सचिव ग्रेड में नियुक्ति करते हैं।

नीरज सचदेवा
अवर सचिव (प्रशा.)

सं. ए-19016/04/2011-प्रशा. I--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 20 मार्च 2012 के का. ज्ञा. सं. 3/3/2011-सी एस-II (क) के तहत के. सचि. आ. से. की चयन सूची 2010 के प्रधान निजी सचिव (प्र. नि. सचि.) ग्रेड के पद पर नियमित पदोन्नति होने तथा सं. लो. से. आ. के के. सचि. आ. संवर्ग में उनका नामांकन होने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति, के सचि. आ. से संवर्ग के प्रधान निजी सचिव (प्र. नि. सचिव) श्री आर रामलिंगम को दिनांक 20.03.2012 के पूर्वाह्न से अर्थात् का. एवं प्र. वि. के का. ज्ञा. की तारीख से आगामी आदेशों तक संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में 6,600/- रु. के ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड-3 (15,600--39,100/- रु.) में के. सचि. आ. से. के. प्रधान निजी सचिव ग्रेड में नियुक्ति करते हैं।

नीरज सचदेवा
अवर सचिव (प्रशा.)

सं. ए-19016/02/2011-प्रशा. I--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 20 मार्च 2012 के का. ज्ञा. सं. 3/3/2011-सी एस-II (क) के

तहत के. सचि. आ. से. की चयन सूची 2010 के प्रधान निजी सचिव (प्र.नि.सचि.) ग्रेड के पद पर नियमित पदोन्नति होने तथा सं. लो. से. आ. के के. सचि. आ. संवर्ग में उनका नामांकन होने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति, के सचि. आ. से संवर्ग के प्रधान निजी सचिव (प्र. नि. सचिव) श्री राधाकृष्ण को दिनांक 20.03.2012 के पूर्वाह्न से अर्थात् का. एवं प्र. वि. के का. ज्ञा. की तारीख से आगामी आदेशों तक संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में 6,600/- रु. के ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड-3 (15,600--39,100/- रु.) में के. सचि. आ. से. के. प्रधान निजी सचिव ग्रेड में नियुक्ति करते हैं।

नीरज सचदेवा
अवर सचिव (प्रशा.)

दिनांक 14 जून 2012

सं. ए-35018/03/2007-प्रशा-2--इस कार्यालय के दिनांक 17.02.2010 के समसंख्यक अधिसूचना के निरंतरता में एवं सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त, आयोग कार्यालय में कार्यरत केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के सहायक श्री एम. धनंजयन के नयाचार अधिकारी के पद पर [संशोधित वेतनमान पी. बी.-2, रु. 9,300--34,800/- ग्रेड वेतन रु. 4,800/- (समूह-ख, राजपत्रित)] प्रतिनियुक्ति की अवधि आगामी एक वर्ष के लिए यानि दिनांक 16.02.2012 से 15.02.2013 तक या अगले आदेशों तक (जो भी पहले हो) के लिए विस्तारित की जाती है।

नीरज सचदेवा
अवर सचिव (प्रशा.)

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली-110003, दिनांक 13 जून 2012

सं. डीपी/पर्स-1/2012/0049/3/57/2004--श्री पी. राम मोहन राव, अपर पुलिस अधिक्षक ने अधिवर्षिता की आयु होने पर दिनांक 31.05.2012 के अपराह्न से केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

एम. सचदेव
प्रशासन अधिकारी (कार्मिक)

दिनांक 15 जून 2012

सं. डीपी/पर्स-1/2012/0051/3/108/2011--राष्ट्रपति, श्री के. सलीम अली, भा. पु. सेवा (एमटी : 1978) को दिनांक 24.05.2012 के

पूर्वाह्न से उनकी अधिवर्षिता की आयु होने अर्थात् 30.11.2013 तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, उन्हें केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में विशेष निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

एम. सचदेव
प्रशासन अधिकारी (कार्मिक)

सं. डीपी/पर्स-1/2012/0052/3/29/2007--श्री पी. कन्डास्वामी, भा. पु. सेवा (टीएन - 1989) ने केन्द्र में 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल पूरा कर लेने पर दिनांक 27.05.2012 के अपराह्न से संयुक्त निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, मुम्बई का कार्यभार छोड़ दिया है।

एम. सचदेव
प्रशासन अधिकारी (कार्मिक)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 15 जून 2012

सं. डीपी/पर्स-1/2012/50/03/50/2012--राष्ट्रपति, श्री रूपक कुमार दत्ता, भा. पु. सेवा (कर्नाटक : 1981) को 11.06.2012 के पूर्वाह्न से 4 वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, उन्हें केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में अपर निदेशक के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एस. जे. एम. गिलानी
उप निदेशक (प्रशा.)

गृह मंत्रालय

(पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 22 जून 2012

सं. 3/32/2010-प्रशा.--भारत के राष्ट्रपति, डा. ईश कुमार, भा. पु. से. (आ. प्र. : 85) महानिरीक्षक/निदेशक, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की प्रतिनियुक्ति अवधि 1 में 27.05.2012 से 27.05.2013 तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो एक वर्ष की वृद्धि करते हैं। यह गृह मंत्रालय के दिनांक 08 जून, 2012 के ज्ञापन सं. 1-21017/03/2008-भा.पु.से. के अनुपालन में जारी किया जा रहा है।

धनीराम
सहायक निदेशक (प्रशा.)

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 20 जून 2012

सं. पी.सात-1/2012-मंत्रा./2016--सूबेदार मेजर (मंत्रालयिक) से सहायक कमाण्डेन्ट (मंत्रालयिक) के पद पर पदोन्नति होने के फलस्वरूप निम्नलिखित सूबेदार मेजर (मंत्रालयिक) ने प्रत्येक के सामने दर्शाए गए कार्यालय में दर्शाई गई तिथियों को सहायक कमाण्डेन्ट (मंत्रालयिक) का कार्यभार ग्रहण कर लिया है :--

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	कार्यालय जहां कार्यभार संभाला	कार्यग्रहण करने की तिथि
1.	श्री रामकिशन रैगर, सहायक कमाण्डेन्ट (मंत्रालयिक), ईरला-8700	कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, नीमच	02.11.2011 (पूर्वाह्न)
2.	श्री विनय मोहन शर्मा, सहायक कमाण्डेन्ट (मंत्रालयिक), ईरला-8731	कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक, राजस्थान सेक्टर, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, जयपुर	05.12.2011 (पूर्वाह्न)
3.	श्री राकेश कुमार, सहायक कमाण्डेन्ट (मंत्रालयिक), ईरला-8672	कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रुप केन्द्र, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, अमेठी	21.11.2011 (पूर्वाह्न)
4.	श्री देवेन्द्र सिंह, सहायक कमाण्डेन्ट (मंत्रालयिक), ईरला-9143	कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रुप केन्द्र-1, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, अजमेर	25.05.2012 (पूर्वाह्न)
5.	श्री राज सिंह, सहायक कमाण्डेन्ट (मंत्रालयिक), ईरला-8728	कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रुप केन्द्र, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, सोनीपत	12.10.2011 (पूर्वाह्न)
6.	श्रीमति ओमवती, सहायक कमाण्डेन्ट (मंत्रालयिक), ईरला-8732	कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रुप केन्द्र, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, सोनीपत	12.10.2011 (पूर्वाह्न)
7.	श्री अजय बोरा, सहायक कमाण्डेन्ट (मंत्रालयिक), ईरला-8744	कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक, पूर्वोत्तर सेक्टर, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, शिलांग	11.11.2011 (पूर्वाह्न)
8.	श्री अवतार सिंह, सहायक कमाण्डेन्ट (मंत्रालयिक), ईरला-9144	कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक, जम्मू सेक्टर, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, जम्मू	04.06.2012 (पूर्वाह्न)
9.	श्री वी. एस. राधाकृष्णन, सहायक कमाण्डेन्ट (मंत्रालयिक), ईरला-9146	कार्यालय अपर महानिदेशक, दक्षिणी जोन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, हैदराबाद	03.05.2012 (पूर्वाह्न)
10.	श्री सतपाल चौधरी, सहायक कमाण्डेन्ट (मंत्रालयिक), ईरला-8748	कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, खटखटी	05.12.2011 (पूर्वाह्न)
11.	श्री एस. चटोपाध्याय, सहायक कमाण्डेन्ट (मंत्रालयिक), ईरला-9138	कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक, पूर्वी सेक्टर, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, कोलकाता	11.06.2012 (पूर्वाह्न)
12.	श्री बी. एस. ए. बिष्ट, सहायक कमाण्डेन्ट (मंत्रालयिक), ईरला-8681	कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रुप केन्द्र, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, काठगोदाम	11.11.2011 (पूर्वाह्न)

जी. वी. एच. गिरीप्रसाद
पुलिस उप महानिरीक्षक (संगठन)

समन्वय निदेशालय
(पुलिस बेतार)

नई दिल्ली-3, दिनांक 18 जून 2012

की आयु पूरी होने पर दिनांक 31.05.2012 (अपराह्न) से सरकारी सेवा
से सेवा निवृत्त हो गये हैं।

सं. ए-17011/39(वी-53)/2011-प्रशा. I--इस निदेशालय के
श्री वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल, अतिरिक्त सहायक निदेशक अपनी अधिवर्षिता

पी. के. सिंहल
निदेशक

महानिदेशालय, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-3, दिनांक 15 जून 2012

सं. ई-16015/(2)/32/2009/कार्मिक-1/204--राष्ट्रपति, के.ओ.सु.ब. के निम्नलिखित कमांडेंट को रु. 37,400--67,000/- (पीबी-4) + ग्रेड पे रु. 8,700/- के वेतनमान में के.ओ.सु.ब. में वरिष्ठ कमांडेंट के पद में नियमित पदोन्नति होने पर उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से उन्हें इस पद पर नियुक्त करती हैं :--

नाम	कार्यालय/इकाई जहां पद ग्रहण किया	वरिष्ठ कमांडेंट के रूप में कार्यभार संभालने के तिथि
श्री दीपक अग्रवाल	बल मुख्यालय, नई दिल्ली	04.06.2012 (अपराह्न)

हस्ता./- अपठनीय
महानिदेशक/के.ओ.सु.ब.

सं. ई-16015/(2)/32/2009/कार्मिक-1/205--राष्ट्रपति, के.ओ.सु.ब. के निम्नलिखित वरिष्ठ कमांडेंट को रु. 37,400--67,000/- (पीबी-4) + ग्रेड पे रु. 8,900/- के वेतनमान में के.ओ.सु.ब. में उप महानिरीक्षक के पद में नियमित पदोन्नति होने पर उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से उन्हें इस पद पर नियुक्त करती हैं :--

नाम	उप महानिरीक्षक के रूप में कार्यभार संभालने के तिथि
श्री एस. पी. सैलवन	01.06.2012 (पूर्वाह्न)

हस्ता./- अपठनीय
महानिदेशक/के.ओ.सु.ब.

दिनांक 19 जून 2012

शुद्धि-पत्र

सं. ई-16013/(1)/एटी-डीआईजी/2007/कार्मिक-1/210--कृपया इस निदेशालय अधिसूचना सं.ई-16013/(1)/एटी/2007/कार्मिक-1/184 दिनांक 21.05.2012 में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :--

के लिए

श्रीमति अर्चना त्यागी, भापुसे, (एमएच : 1993), उ.म.नि., की उनके मूल महाराष्ट्र संवर्ग में महानिरीक्षक पद में पदोन्नति होने के फलस्वरूप, उनको प्रतिनियुक्ति से अपने संवर्ग में समय से पूर्व प्रत्यावर्तन किए जाने पर उन्होंने दिनांक 10.05.2012 (पूर्वाह्न) से उप महानिरीक्षक (प.क्षे. एयरपोर्ट) के.ओ.सु.ब. मुख्यालय, मुम्बई का पदभार छोड़ दिया है।

पढ़ा जाए

श्रीमति अर्चना त्यागी, भापुसे, (एमएच : 1993), उ.म.नि., की उनके मूल महाराष्ट्र संवर्ग में महानिरीक्षक पद में पदोन्नति होने के फलस्वरूप, उनको प्रतिनियुक्ति से अपने संवर्ग में समय से पूर्व प्रत्यावर्तन

किए जाने पर उन्होंने दिनांक 10.05.2012 (अपराह्न) से उप महानिरीक्षक (प.क्षे. एयरपोर्ट) के.ओ.सु.ब. मुख्यालय, मुम्बई का पदभार छोड़ दिया है।

हस्ता./- अपठनीय
महानिदेशक/के.ओ.सु.ब.

दिनांक 22 जून 2012

सं. ई-16015/(2)/32/2009/कार्मिक-1/212--सक्षम अधिकारी, के.ओ.सु. बल नियमावली 2001 के नियम 5 के अंतर्गत दी गई शक्ति का प्रयोग करते हुए के.ओ.सु.ब. के निम्नलिखित निरीक्षक (कार्य) को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से सहायक कमांडेंट (कार्य) का लोकल रैंक प्रदान करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	कार्यालय/इकाई जहां पद ग्रहण किया	सहायक कमांडेंट (लोकल रैंक) में पद ग्रहण की तिथि
सर्वश्री			
1.	गिरीश बाबु सिंह	एसजी लखनऊ	14.05.2012 (पूर्वाह्न)
2.	दीपक कुमार सरकार	एसजी मुम्बई	10.01.2011 (पूर्वाह्न)
3.	जसवंत सिंह	निसा हैदराबाद	16.12.2011 (पूर्वाह्न)
4.	वेद प्रकाश यादव	बोम बोलानी	16.04.2012 (पूर्वाह्न)
5.	पी. के. राऊत	नालको अंगुल	27.09.2011 (अपराह्न)
6.	पी. के. सेठी	नालको अंगुल	12.09.2011 (पूर्वाह्न)

हस्ता./- अपठनीय
महानिदेशक/के.ओ.सु.ब.

सं. ई-16015/(2)/32/2009/कार्मिक-1/213--सक्षम अधिकारी, के.ओ.सु. बल नियमावली 2001 के नियम 5 के अंतर्गत दी गई शक्ति का प्रयोग करते हुए के.ओ.सु.ब. के निम्नलिखित सहायक कमांडेंट (कार्य) को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से उप कमांडेंट (कार्य) का लोकल रैंक प्रदान करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	कार्यालय/इकाई जहां पद ग्रहण किया	उप.कमांडेंट (लोकल रैंक) में पद ग्रहण की तिथि
सर्वश्री			
1.	मनीष कुमार राय	आईटीएल, बंगलौर	18.05.2012 (पूर्वाह्न)
2.	एम.डी.एन.ए. खॉन	एचपीसीएल (वीआर-बीपी) विजाग	25.05.2012 (पूर्वाह्न)
3.	एन. आर. शर्मा	आईपीजीसीएल/पीपीसीएल, नई दिल्ली	01.05.2012 (पूर्वाह्न)
4.	आशीष कुमार	एसजी, भोपाल	26.06.2011 (पूर्वाह्न)
5.	सुधीर कुमार	एसजी, पोर्ट ब्लेयर	13.05.2011 (पूर्वाह्न)
6.	दिलीप कुमार	डीएम-1 बीएन, मुन्डली	27.08.2010 (पूर्वाह्न)
7.	सुखराम पाल	एसडीएससी, शार	15.11.2010 (पूर्वाह्न)

हस्ता./- अपठनीय
महानिदेशक/के.ओ.सु.ब.

सं. ई-16015/(2)/32/2009/कार्मिक.1/214--सक्षम अधिकारी, के. औ.सु.बल नियमावली 2001 के नियम 5 के अंतर्गत दी गई शक्ति का प्रयोग करते हुए के.औ.सु.ब. के निम्नलिखित उप कमान्डेंट (कार्य) को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से कमान्डेंट (कार्य) का लोकल रैंक प्रदान करते हैं :-

क्र. सं.	नाम	कार्यालय/इकाई जहाँ पद ग्रहण किया	कमान्डेंट (लोकल रैंक) में पद ग्रहण की तिथि
----------	-----	----------------------------------	--

सर्वश्री		
1.	आर. के. वैश	एफबीपी फरक्का
2.	ओ. पी. एस. चौहान	एसएसटीपीएस सूरतगढ़
3.	डी. एन. दास	आरटीसी-देवली
4.	एस. के. एस. फरतियाल	ईसीएल सितलपुर
5.	जय लाल कौशल	केकेएनपीपी कुन्डनकुलम

हस्ता./-अपठनीय
महानिदेशक/के.औ.सु.ब.

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग
प्रधान महालेखाकार (ले. व ह.) का कार्यालय, केरल
तिरुवनंतपुरम, दिनांक 21 जून 2012

सं. का.स्था.(ह व रो)/ई-IV पै/000044--भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के निम्नलिखित अधिकारी सेवानिवृत्त हुए हैं :-

क्र. सं.	नाम	पदनाम	सेवानिवृत्ति की तारीख
----------	-----	-------	-----------------------

1	2	3	4
1.	श्रीमती गिरिजा श्रीधर सी. एस.	वरिष्ठ लेखा अधिकारी (उप.म.ले.(त)के रूप में स्थानापन्न) प्रधान कार्यालय, तिरुवनंतपुरम	31.05.2012 अपराह्न (अधिर्वर्षिता)
2.	श्रीमती जया टी. के.	वरिष्ठ लेखा अधिकारी शाखा कार्यालय, तृशूर	31.05.2012 अपराह्न (अधिर्वर्षिता)
3.	श्रीमती लीला पी. सी.	वरिष्ठ लेखा अधिकारी शाखा कार्यालय, कोट्टयम	31.05.2012 अपराह्न (अधिर्वर्षिता)
4.	श्रीमती मेरी जोसफिन	लेखा अधिकारी प्रधान कार्यालय, तिरुवनंतपुरम	31.05.2012 अपराह्न (अधिर्वर्षिता)

1	2	3	4
5.	श्री विजयकुमारन सहायक लेखा अधिकारी तम्पी के.	31.05.2012 अपराह्न प्रधान कार्यालय, तिरुवनंतपुरम	(अधिर्वर्षिता)
6.	श्री कृष्णन के. (स. 3)	सहायक लेखा अधिकारी प्रधान कार्यालय, तिरुवनंतपुरम	31.05.2012 अपराह्न (अधिर्वर्षिता)

एस. विश्वनाथन
उप महालेखाकार (प्रशासन)

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), ओड़िशा
भुवनेश्वर, दिनांक 18 जून 2012

सं. प्रशासन-I-भा.ले.वि.-गुप 'ख'/544--दिनांक 31.05.2012 के का.आ.ग.सं. 167 में दी गई पदोन्नति को स्वीकार करने के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित सहायक लेखा अधिकारियों को उनके नामों के आगे दर्शाए गए तिथि से अर्थात् उनके कार्यभार ग्रहण करने के तिथि से एवं उनके वरीयतों के बकाया पड़े मामलों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना लेखा अधिकारी (गुप 'ख' राजपत्रित) पद पर वेतन बैंड (पी.बी.-2) रु. 9,3000--34,800/- ग्रेड वेतन रु. 5,400/- पर प्रधान महालेखाकार ने सहर्ष पदोन्नति प्रदान करते हैं :-

क्र.सं.	नाम	दिनांक
1.	श्री सुरेश चन्द्र नन्द	01.06.2012
2.	श्री परेश कुमार साहु	01.06.2012

यह पदोन्नति अस्थाई आधार पर की गई एवं उच्चतम न्यायालय/उच्च-न्यायालय/केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अंतिम निर्णय पर आधारित है। दिनांक 31.05.2012 के का.आ.ग. सं. 167 में विहित शर्तें एवं अनुबंध अपरिवर्तित रहेंगे।

आशीष कुमार बिद
उप महालेखाकार (प्रशासन)

सं. प्रशासन-I-भा.ले.वि.-गुप 'ख'/546--दिनांक 07.06.2012 के का.आ.ग.सं. 183 में दी गई तदर्थ पदोन्नति को स्वीकार करने के परिणाम स्वरूप सुश्री सुचित्रा भट्ट, सहायक लेखा अधिकारी को दिनांक 07.06.2012 (पूर्वाह्न) से अर्थात् उनके कार्यभार ग्रहण करने के तिथि से एवं उनके वरीयतों के बकाया पड़े मामलों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना लेखा अधिकारी (गुप 'ख' राजपत्रित) पद पर वेतन बैंड (पी.बी.-2) रु. 9,300--34,800/- ग्रेड वेतन रु. 5,400/- पर प्रधान महालेखाकार ने सहर्ष पदोन्नति प्रदान करते हैं।

यह पदोन्नति अस्थाई आधार पर की गई एवं उच्चतम न्यायालय/उच्च-न्यायालय/केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अंतिम निर्णय पर

आधारित है। दिनांक 07.06.2012 के का.आ.ग. सं. 183 में विहित शर्तें एवं अनुबंध अपरिवर्तित रहेंगे।

आशीष कुमार बिद
उप महालेखाकार (प्रशासन)

महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) का
कार्यालय, ओड़िशा

भुवनेश्वर, दिनांक 19 जून 2012

सं. प्रशा.(सा.सा.क्षे.ले.)-3-1(ले.प.अ.)भाग-X/894--ज्ञापन
सं. प्रशा. (लेप)3-1/भाग-X/796, दिनांक 08.06.2012 द्वारा सूचित
का.आ.ग. 252, दिनांक 08.06.2012 के अनुपालन में निम्नलिखित
कर्मचारियों ने पदोन्नति होने पर उनके नाम के आगे दर्शाए गए तिथि से

वेतन बैंड-2 (रु. 9,300--34800/-) एवं सादृश्य वेतन ग्रेड रु. 4,800/-
पर सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किए :-

क्र. सं.	नाम	सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में कार्यभार लेने की तिथि
1.	श्री जगबन्धू दास	08.06.2012 (पूर्वाह्न)
2.	सुधीर कुमार बेहेरा	08.06.2012 (पूर्वाह्न)
3.	श्रीमती स्मिता चौधुरी	08.06.2012 (पूर्वाह्न)
4.	बिश्वजीत चातार	15.06.2012 (पूर्वाह्न)

एस. एस. दास
लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन)

खान मंत्रालय
(भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण)

कोलकाता-16, दिनांक 12 जून 2012

सं. 8358 एसपी/ए-12025/1-भूविज्ञान/अधिसूचना/07/19ए--राष्ट्रपति जी निम्नलिखित अभ्यर्थियों को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में भूवैज्ञानिक [पूर्व में भूवैज्ञानिक (कनिष्ठ)] (समूह 'क', राजपत्रित) के पद पर रु. 5,400/- के ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड-3 (रु. 15,600--39,100/-) के न्यूनतम में अस्थायी आधार पर प्रत्येक के सामने यथा उल्लिखित अन्य विवरण एवं तिथि से प्रभावित आगामी आदेशों तक नियुक्त करते हैं :-

क्र. सं.	नाम एवं श्रेणी	नियुक्ति की तिथि	जन्म तिथि	तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1.	श्री अंशुल कुमार जायसवाल, (अ.पि.व.)	01.04.2010 (पूर्वाह्न)	01.04.1985	राजस्थान राज्य इकाई, पश्चिमी क्षेत्र, जयपुर	*अनंतिम
2.	श्रीमती सीमा यादव, (अ.पि.व.)	01.04.2010 (पूर्वाह्न)	21.11.1982	परि: मध्य प्रदेश-II, मध्य क्षेत्र, भा. भू. स., जबलपुर	*अनंतिम
3.	श्री हृदानंदा नाइक, (अनुसूचित जनजाति)	01.04.2010 (पूर्वाह्न)	01.05.1976	परि: तमिलनाडु एवं पांडिचेरी, दक्षिणी क्षेत्र, भा. भू. स., चेन्नई	-----
4.	श्रीमती ओलीना सी. एस.,	01.04.2010 (पूर्वाह्न)	23.05.1981	परि: कर्नाटक एवं गोवा, दक्षिणी क्षेत्र, भा. भू. स., बंगलूरु	-----
5.	श्रीमती प्रिया आर., (अ.पि.व.)	01.04.2010 (पूर्वाह्न)	25.05.1981	आंध्र प्रदेश राज्य इकाई, दक्षिणी क्षेत्र, भा. भू. स., हैदराबाद	-----
6.	डॉ. मोहम्मद युसुफ खांडे,	01.04.2010 (पूर्वाह्न)	25.03.1980	राजस्थान राज्य इकाई, पश्चिमी क्षेत्र, जयपुर	-----
7.	श्रीमती रेशमी माधवन,	01.04.2010 (पूर्वाह्न)	04.12.1984	आंध्र प्रदेश राज्य इकाई, दक्षिणी क्षेत्र, भा. भू. स., हैदराबाद	-----
8.	श्री संजय जंग्राल, (अनुसूचित जाति)	01.04.2010 (पूर्वाह्न)	10.04.1974	परि: मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, मध्य क्षेत्र, भा. भू. स., रायपुर	*अनंतिम
9.	श्री पी. दुर्गा प्रसाद, (अ.पि.व.)	01.04.2010 (पूर्वाह्न)	04.11.1985	समुद्री एवं तटीय सर्वेक्षण प्रभाग, भा. भू. स., पंडेश्वर, मंगलूरु	#अनंतिम
10.	श्री एस. प्रदीप कुमार,	01.04.2010 (पूर्वाह्न)	24.12.1985	मिशन-II बी, पूर्वी क्षेत्र, भा. भू. स., कोलकाता	#अनंतिम
11.	श्री अरविंद,	01.04.2010 (पूर्वाह्न)	26.11.1976	पूर्वोत्तर क्षेत्र, भा. भू. स., शिलांग	-----

* उपरोक्त नियुक्ति अनंतिम है तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन है।

उपरोक्त नियुक्ति अनंतिम है तथा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा बी.एस.सी. एवं एम.एस.सी. की मूल उपाधि के सत्यापन के अध्याधीन है।

एच. एम. मिश्रा
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी श्रेणी
कृते महानिदेशक

सं. 8359 एसपी/ए-12025/1-भूविज्ञान/अधिसूचना/07/19ए--राष्ट्रपति जी निम्नलिखित अभ्यर्थियों को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में भूवैज्ञानिक [पूर्व में भूवैज्ञानिक (कनिष्ठ)] (समूह 'क', राजपत्रित) के पद पर रु. 5,400/- के ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड-3 (रु. 15,600--39,100/-) के न्यूनतम में अस्थायी आधार पर प्रत्येक के सामने यथा उल्लिखित अन्य विवरण एवं तिथि से प्रभावित आगामी आदेशों तक नियुक्त करते हैं :-

क्र. सं.	नाम एवं श्रेणी	नियुक्ति की तिथि	जन्म तिथि	तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1.	श्री कैलाश सिंह, (अनुसूचित जाति)	01.04.2010 (पूर्वाह्न)	28.10.1980	पूर्वोत्तर क्षेत्र, सिक्किम	*अनंतिम
2.	श्री भाईसे महेश सिद्धेश्वर, (अ.पि.व.)	01.04.2010 (पूर्वाह्न)	01.08.1982	राजस्थान राज्य इकाई, पश्चिमी क्षेत्र, जयपुर	*अनंतिम
3.	श्री एन. मरीबेमो यांथान, (अनुसूचित जनजाति)	01.04.2010 (पूर्वाह्न)	04.12.1980	पूर्वोत्तर क्षेत्र, दीमापुर	-----
4.	श्रीमती दीपमाला शामराव बारसागडे, (अनुसूचित जाति)	01.04.2010 (पूर्वाह्न)	06.05.1984	राजस्थान राज्य इकाई, पश्चिमी क्षेत्र, जयपुर	*#अनंतिम
5.	श्री त्रिदीप कुमार एन., (अ.पि.व.)	01.04.2010 (पूर्वाह्न)	31.05.1980	पूर्वोत्तर क्षेत्र, सिक्किम	*अनंतिम
6.	श्री दीप राज थापा, (अनुसूचित जाति)	01.04.2010 (पूर्वाह्न)	14.01.1978	परि: पंजाब हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश, उत्तरी क्षेत्र, चंडीगढ़	*अनंतिम
7.	श्री बलबीर सिंह, (अनुसूचित जाति)	01.04.2010 (पूर्वाह्न)	10.03.1980	पूर्वोत्तर क्षेत्र, शिलांग	*अनंतिम
8.	श्रीमती शानीब वी., (अ.पि.व.)	01.04.2010 (पूर्वाह्न)	13.10.1981	परि: तमिलनाडु एवं पांडिचेरी, दक्षिणी क्षेत्र, चेन्नई	-----
9.	श्री गिरधारी दास, (अ.पि.व.)	01.04.2010 (पूर्वाह्न)	01.06.1975	परि: पंजाब हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश, उत्तरी क्षेत्र, चंडीगढ़	#अनंतिम
10.	श्रीमती सुजाता सौग्राक्पम, (अ.पि.व.)	07.04.2010 (पूर्वाह्न)	03.03.1980	पूर्वोत्तर क्षेत्र, शिलांग	*अनंतिम
11.	श्रीमती अतुल्या राजन एस., (अनुसूचित जाति)	01.04.2010 (पूर्वाह्न)	25.05.1982	राजस्थान राज्य इकाई, पश्चिमी क्षेत्र, जयपुर	-----
12.	श्री अरुण के. श्रीधर, (अ.पि.व.)	01.04.2010 (पूर्वाह्न)	21.05.1979	परि: बिहार एवं झारखंड, रांची	-----

* उपरोक्त नियुक्ति अनंतिम है तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन है।

उपरोक्त नियुक्ति अनंतिम है तथा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा एम.एस.सी. उपाधि प्रमाण पत्र के सत्यापन के अध्याधीन है।

एच. एम. मिश्रा
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी श्रेणी
कृते महानिदेशक

दिनांक 20 जून 2012

सं. 8609एसपी/ए-12025/1-भूविज्ञान/अधिसूचना/07/19ए--राष्ट्रपति जी निम्नलिखित अभ्यर्थियों को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में भूवैज्ञानिक [पूर्व में भूवैज्ञानिक (कनिष्ठ)] (समूह 'क', राजपत्रित) के पद पर रु. 5,400/- के ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड-3 (रु. 15,600--39,100/-) के न्यूनतम में अस्थायी आधार पर प्रत्येक के सामने यथा उल्लिखित अन्य विवरण एवं तिथि से प्रभावित आगामी आदेशों तक नियुक्त करते हैं :-

क्र. सं.	नाम एवं श्रेणी	नियुक्ति की तिथि	जन्म तिथि	तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1.	श्री देवेंद्र सिंह	01.04.2010 (पूर्वाह्न)	03.06.1978	हिमनद विज्ञान, उत्तरी क्षेत्र, लखनऊ	-----
2.	श्री मैबम रोगीबाला (अ.पि.व.)	01.04.2010 (पूर्वाह्न)	28.02.1982	परि: उत्तरी प्रदेश एवं उत्तराखंड, भा. भू. स., उत्तरी क्षेत्र, लखनऊ	-----
3.	श्री रिपल कर	01.04.2010 (पूर्वाह्न)	11.01.1982	आंध्र प्रदेश राज्य इकाई, भा. भू. स., दक्षिणी क्षेत्र, हैदराबाद	-----
4.	श्री तरसम कुमार	01.04.2010 (पूर्वाह्न)	26.04.1977	परि: पंजाब हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश, उत्तरी क्षेत्र, चंडीगढ़	-----
5.	श्री सजू वर्गीज	01.04.2010 (पूर्वाह्न)	28.09.1983	समुद्री एवं तटीय सर्वेक्षण प्रभाग परि: पूर्वी तट-I, पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, कालोकाता	-----

एच. एम. मिश्रा
प्रशासन अधिकारी श्रेणी-I
कृते माहनिदेशक

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र

मुम्बई-400085, दिनांक 18 जून 2012

सं. पीडी/6(1)/2012-भर्ती-III/2012/5307--नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, श्रीमती भारती सतिश सुवर्णा, सहायक, परमाणु ऊर्जा विभाग, मुम्बई को दिनांक 14.05.2012 (पूर्वाह्न) से, आगामी आदेशों तक रु. 9,300--34,800/- के वेतन बैंड-2 तथा ग्रेड वेतन रु. 4,800/- में भापअ केन्द्र, तारापुर में सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर नियमित रूप से नियुक्त करते हैं।

शैलजा प्रकासम
उप स्थापना अधिकारी

सं. पीडी6(1)/2012-भर्ती-III/2012/5309--नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, श्रीमती बी. ललिता, सहायक, एनएफसी, हैदराबाद, को दिनांक 14.05.2012 (पूर्वाह्न) से, आगामी आदेशों तक रु. 9,300--34,800/- के वेतन बैंड-2 तथा ग्रेड वेतन रु. 4,800/- में इस अनुसंधान केन्द्र में सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर नियमित रूप से नियुक्त करते हैं।

शैलजा प्रकासम
उप स्थापना अधिकारी

मुम्बई-400085, दिनांक 18 जून 2012

सं. 93/अधि./स्था.-IA/5296--निम्नलिखित तालिका में कॉलम-2 पर दर्शाए गए अधिकारियों द्वारा नामों के सामन कॉलम-3 पर दर्शाए गए पद, कॉलम-4 पद दर्शाई गई तारीखों को, कॉलम-5 पर दर्शाई गई घटना के आधार पर अधिकारियों द्वारा धारित पदों का कार्यभार त्याग किया गया है:-

क्र. सं.	नाम	कार्यभार त्यागने का पद	पदत्याग करने की तारीख	घटना
1	2	3	4	5
1.	श्री मयंक सिंह	वै. अ./सी	14.05.2012 (अप.)	त्यागपत्र
2.	डॉ. (श्रीमती) उषा नारायणन	वै. अ./ई	16.05.2012 (पूर्वा.)	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति
3.	कुमारी सौम्या के.	वै. अ./सी	31.05.2012 (अप.)	अधिर्वर्षिता
4.	श्रीमती एस. एस. लोखंडे	वै. अ./ई	31.05.2012 (अप.)	अधिर्वर्षिता
5.	श्री जोर्ज थॉमस	वै. अ./एफ	31.05.2012 (अप.)	अधिर्वर्षिता
6.	श्री सोमनाथ मजुमदार	वै. अ./जी	31.05.2012 (अप.)	अधिर्वर्षिता

1	2	3	4	5
7.	श्री वी. एम. जोशी	उत्कृष्ट वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, ई आई एस डी	31.05.2012 (अप.)	अधिवर्षिता
8.	डॉ. वी. के. मागो	उत्कृष्ट वैज्ञानिक	31.05.2012 (अप.)	अधिवर्षिता
9.	श्री आर. एन. खनिजो	वै. अ./एच	31.05.2012 (अप.)	अधिवर्षिता
एस. जी. मार्कण्डेय नियंत्रक				

परमाणु ऊर्जा विभाग

(परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र)

कोलकाता-700064, दिनांक 20 जून 2012

सं. वीईसीसी/पदोन्नति(जुलाई)/2011/4085--राष्ट्रपति, प्रसन्नतापूर्वक परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, कोलकाता के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों को इसी केन्द्र पर वेतन बैंड रु. 15,600-- 39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 7,600/- के वेतनमान में वैज्ञानिक अधिकारी (ई) के पद पर काम करने के लिए 01 जुलाई, 2011 के पूर्वाह्न से अगले आदेश निकलने तक नियुक्ति प्रदान करते हैं :-

क्र. नाम सं.	वर्तमान पद	वेतन बैंड + ग्रेड वेतन
1. श्री गौरव सक्सेना	वैज्ञानिक अधिकारी (डी)	रु. 15,600--39,100/- + रु. 6,600/-
2. श्री कौशिक दत्ता	वैज्ञानिक अधिकारी (डी)	रु. 15,600--39,100/- + रु. 6,600/-
3. श्री जे. के. नायक	वैज्ञानिक अधिकारी (डी)	रु. 15,600--39,100/- + रु. 6,600/-
4. डॉ. (श्रीमती) एम. भट्टाचार्य	वैज्ञानिक अधिकारी (डी)	रु. 15,600--39,100/- + रु. 6,600/-
5. श्री रथीन साहा	वैज्ञानिक अधिकारी (डी)	रु. 15,600--39,100/- + रु. 6,600/-
6. श्री सुप्रीयो मुखोपाध्याय	वैज्ञानिक अधिकारी (डी)	रु. 15,600--39,100/- + रु. 6,600/-
7. श्री उमाशंकर पांडा	वैज्ञानिक अधिकारी (डी)	रु. 15,600--39,100/- + रु. 6,600/-
8. मो. जमाल अब्दुल नासिर	वैज्ञानिक अधिकारी (डी)	रु. 15,600--39,100/- + रु. 6,600/-
9. श्री तपन कुमार राना	वैज्ञानिक अधिकारी (डी)	रु. 15,600--39,100/- + रु. 6,600/-
10. श्री अतनु दत्ता	वैज्ञानिक अधिकारी (डी)	रु. 15,600--39,100/- + रु. 6,600/-

एन. वी. एस. वी. प्रसाद
प्रशासनिक अधिकारी-III

सं. वीईसीसी/पदोन्नति(जुलाई)/2011/4086--राष्ट्रपति, प्रसन्नतापूर्वक परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, कोलकाता के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों को इसी केन्द्र पर वेतन बैंड रु. 15,600-- 39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 6,600/- के वेतनमान में वैज्ञानिक अधिकारी (डी) के पद पर काम करने के लिए 04 जुलाई, 2011 के पूर्वाह्न से अगले आदेश निकलने तक नियुक्ति प्रदान करते हैं :-

नाम	वर्तमान पद	वेतन बैंड + ग्रेड वेतन
श्री रणदेव दत्ता	वैज्ञानिक अधिकारी (सी)	रु. 15,600--39,100/- + रु. 5,400/-

एन. वी. एस. वी. प्रसाद
प्रशासनिक अधिकारी-III

सं. वीईसीसी/पदोन्नति(जुलाई)/2011/4087--राष्ट्रपति, प्रसन्नतापूर्वक परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, कोलकाता के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों को इसी केन्द्र पर वेतन बैंड रु. 15,600-- 39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 6,600/- के वेतनमान में वैज्ञानिक अधिकारी (डी) के पद पर काम करने के लिए 01 जुलाई, 2011 के पूर्वाह्न से अगले आदेश निकलने तक नियुक्ति प्रदान करते हैं :-

क्र. नाम सं.	वर्तमान पद	वेतन बैंड + ग्रेड वेतन
1. श्री अभिषेक सिंह	वैज्ञानिक अधिकारी (सी)	रु. 15,600--39,100/- + रु. 5,400/-
2. श्री स्वागता मलिक	वैज्ञानिक अधिकारी (सी)	रु. 15,600--39,100/- + रु. 5,400/-
3. श्री दिप्ता प्रातिम दत्ता	वैज्ञानिक अधिकारी (सी)	रु. 15,600--39,100/- + रु. 5,400/-
4. श्री प्रताप रॉय	वैज्ञानिक अधिकारी (सी)	रु. 15,600--39,100/- + रु. 5,400/-
5. कु. रंजनी मैनन	वैज्ञानिक अधिकारी (सी)	रु. 15,600--39,100/- + रु. 5,400/-
6. श्री विपेन्द्रा कुमार खरे	वैज्ञानिक अधिकारी (सी)	रु. 15,600--39,100/- + रु. 5,400/-

एन. वी. एस. वी. प्रसाद
प्रशासनिक अधिकारी-III

राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र

इन्दौर, दिनांक 18 जून 2012

सं. आरआरकेट/प्रशा./भर्ती/761--राष्ट्रपति ने श्री किरण बड़ाईक को दिनांक 14.03.2012 (पूर्वाह्न) से तकनीकी अधिकारी-सी के पद पर वेतन बैंड-3, रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 5,400/- में राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र, इन्दौर में स्थानापन्न रूप से आगामी आदेशों तक नियुक्त किया है।

बी. के. जेना
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

सं. आरआरकेट/प्रशा./भर्ती/762--राष्ट्रपति ने श्री धीरेन्द्र कुमार वर्मा को दिनांक 20.04.2012 (पूर्वाह्न) से वैज्ञानिक अधिकारी-सी के पद पर वेतन बैंड-3, रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 5,400/- में राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र, इन्दौर में स्थानापन्न रूप से आगामी आदेशों तक नियुक्त किया है।

बी. के. जेना
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

भारी पानी बोर्ड

मुंबई-400094, दिनांक 18 जून 2012

सं. भापाबो/भर्ती/1/(16)--म/2012/315--मुख्य कार्यकारी, भारी पानी बोर्ड, श्री बी. आर. सोमासुंदर, सहायक लेखाकार (पीबी-2, रु. 9,300--34,800/- तथा ग्रेड वेतन रु. 4,600/-), बीएआरसी, मुंबई को दिनांक 12 मार्च, 2012 के (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक रु. 9,300--34,800/- के वेतन बैंड एवं रु. 4,800/- के ग्रेड वेतन में भारी पानी संयंत्र (मणुगूरू) में सहायक लेखा अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

के. एस. पिल्लै
प्रशासन अधिकारी-III

नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र

हैदराबाद-500062, दिनांक 16 जून 2012

सं. एनएफसी/प्रशासन/पेंशन/का.कू-0999/6328--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, हैदराबाद के श्री के. गोपालकृष्णा, वैज्ञानिक अधिकारी 'डी' (वेतन बैंड रु. 15,600--39,100/- तथा ग्रेड वेतन रु. 6,600/-) ने दिनांक 31.05.2012 (अपराह्न) से पद का कार्यभार त्याग दिया है।

गिरिजा रामाप्रसाद
सहायक कार्मिक अधिकारी

सं. एनएफसी/प्रशासन/पेंशन/का.कू-0951/6328--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, हैदराबाद के श्री एस. राजू, वैज्ञानिक अधिकारी 'ई' (वेतन बैंड रु. 15,600--39,100/- तथा ग्रेड वेतन रु. 7,600/-) ने दिनांक 31.05.2012 (अपराह्न) से पद का कार्यभार त्याग दिया है।

गिरिजा रामाप्रसाद
सहायक कार्मिक अधिकारी

सं. एनएफसी/प्रशासन/पेंशन/का.कू-2697/6328--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, हैदराबाद के श्री चन्द्र मोहन, वैज्ञानिक अधिकारी 'ई' (वेतन बैंड

रु. 15,600--39,100/- तथा ग्रेड वेतन रु. 7,600/-) ने दिनांक 31.05.2012 (अपराह्न) से पद का कार्यभार त्याग दिया है।

गिरिजा रामाप्रसाद
सहायक कार्मिक अधिकारी

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

कार्यालय रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

चंडीगढ़, दिनांक 18 जून 2012

सं. आरओसी/560(5)/2000--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :-

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	11744	मैसर्स हर सरूप लीजिंग लिमिटेड
2.	11753	मैसर्स ओसाहन एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
3.	11760	मैसर्स ज़िरकान टूल रूम प्राईवेट लिमिटेड
4.	11762	मैसर्स हा लिफ्ट इक्वूपमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
5.	11769	मैसर्स शताब्दी स्टील ट्यूब्स प्राईवेट लिमिटेड
6.	11777	मैसर्स बाजवा लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड
7.	11784	मैसर्स अबू अहमद मैनेजमेंट सर्विस प्राईवेट लिमिटेड
8.	11788	मैसर्स विबगयोर एग्री फारेस्ट्री लिंक्स प्राईवेट लिमिटेड
9.	11793	मैसर्स ए. एस. के. रबर फैक्टरी प्राईवेट लिमिटेड
10.	11798	मैसर्स कित्य एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
11.	11803	मैसर्स डायमण्ड स्पेयर्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
12.	11813	मैसर्स रियात बियरिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
13.	11814	मैसर्स गैली इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
14.	11817	मैसर्स जी. एच. के. हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड
15.	11818	मैसर्स पूरी फाइनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
16.	11825	मैसर्स मिस्टीक लैडर इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
17.	11826	मैसर्स सेवा हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड
18.	11823	मैसर्स ईशान हायर परचेज एण्ड फाइनेन्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
19.	11831	मैसर्स जी. बी. पेपर मिल प्राईवेट लिमिटेड
20.	11837	मैसर्स पिकटू इन्टरप्राइजिस प्राईवेट लिमिटेड
21.	11839	मैसर्स कबीर हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड
22.	11850	मैसर्स के. एल. राज कुमार जैन हाउसरी प्राईवेट लिमिटेड
23.	11863	मैसर्स रेड स्टार होटल्स प्राईवेट लिमिटेड
24.	11870	मैसर्स महाजन टैन्ट हाऊस प्राईवेट लिमिटेड
25.	11874	मैसर्स मुराद जिंक प्राईवेट लिमिटेड
26.	11883	मैसर्स एस. एन. पर्स एग्रीटेक प्राईवेट लिमिटेड
27.	11884	मैसर्स सिल्वर कार्ट इन्वेस्टमेंट्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
28.	11904	मैसर्स साक्षी डिपोजिट्स लिमिटेड
29.	11907	मैसर्स आई. क्यू. सी. इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
30.	11897	मैसर्स सहयोग क्रेडिट्स लिमिटेड
31.	11899	मैसर्स गुलाटी अपैरल प्राईवेट लिमिटेड
32.	11910	मैसर्स आदेश डाईगनोस्टिक सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड
33.	11914	मैसर्स साहिब कैमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
34.	11915	मैसर्स सिजाद इलैक्ट्रोड्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
35.	11916	मैसर्स जी. ए. फाइनैन्स एण्ड इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड
36.	11920	मैसर्स रंधीर मेटल एक्सटैक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
37.	11936	मैसर्स जैम फील्ड फार्म्स लिमिटेड
38.	11945	मैसर्स वरीन्द्र रोबोटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
39.	11938	मैसर्स एस. डी. क्रेडिट्स प्राईवेट लिमिटेड
40.	11940	मैसर्स चोपसन्स फाइनैन्स प्राईवेट लिमिटेड
41.	11953	मैसर्स तेग एलॉयस प्राईवेट लिमिटेड
42.	11991	मैसर्स के. बी. क्रेडिट्स एण्ड हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड
43.	11994	मैसर्स पी. जे. आर. डिपोजिट्स एण्ड एडवांसिस प्राईवेट लिमिटेड
44.	12005	मैसर्स टीम अप इम्पैक्स प्राईवेट लिमिटेड
45.	12007	मैसर्स सैन्सस स्विचगियर्स प्राईवेट लिमिटेड
46.	12009	मैसर्स एच. के. हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
47.	12012	मैसर्स एन. ए. बी. दुर्गा एलॉयस प्राईवेट लिमिटेड
48.	12011	मैसर्स चांदी गैसचेम प्राईवेट लिमिटेड
49.	12015	मैसर्स पटियाला लिजिंग प्राईवेट लिमिटेड
50.	12017	मैसर्स गरेवाल नोरडिया स्पिंग्स लिमिटेड
51.	12025	मैसर्स रूबी मशरूमस एण्ड कैनिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
52.	12032	मैसर्स के. फुटवियर्स प्राईवेट लिमिटेड
53.	12031	मैसर्स टेक्टेनिक्स ओवरसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
54.	12034	मैसर्स मेगा फिस्कल्स सर्विसिज प्राईवेट लिमिटेड
55.	12039	मैसर्स किम्मी हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड
56.	12040	मैसर्स कित्थ फाइनैन्स प्राईवेट लिमिटेड
57.	12046	मैसर्स नारायण कॉटन ट्रेड्स प्राईवेट लिमिटेड
58.	12045	मैसर्स शंकर लाल श्रद्धा ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
59.	12069	मैसर्स जे. बी. एस. इन्वेस्टमेंट्स इन्टरप्राइजिस प्राईवेट लिमिटेड
60.	12078	मैसर्स सायरा बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
61.	12089	मैसर्स दीवान कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
62.	12090	मैसर्स सुरजीत फार्मास्युटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
63.	12116	मैसर्स सनराईज डिपोजिट्स एण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
64.	12117	मैसर्स टाइकून्स इन्वेस्टमेंट एण्ड शेयर कन्सलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
65.	12109	मैसर्स ओपटिमिस्ट फाइनैन्स एण्ड हायर परचेज लिमिटेड
66.	12115	मैसर्स आर. डी. हायर परचेज एण्ड लीजिंग कम्पनी लिमिटेड
67.	12123	मैसर्स सैन्चुरी ओवरसीज़ प्राईवेट लिमिटेड
68.	12130	मैसर्स चीमा हायर परचेज एण्ड डिपोजिट्स प्राईवेट लिमिटेड
69.	12135	मैसर्स विशाल चैम-टैक प्राईवेट लिमिटेड
70.	12144	मैसर्स शिवा एडवांसिस एण्ड डिपोजिट्स लिमिटेड
71.	12148	मैसर्स राम सरूप सोलवैक्स प्राईवेट लिमिटेड
72.	12152	मैसर्स अमन हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड
73.	12153	मैसर्स अम्बिका बिजनेस कम्प्यूनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
74.	12156	मैसर्स मैक्स एक्सपोर्ट लिमिटेड	101.	12315	मैसर्स सीता हायर परचेस प्राईवेट लिमिटेड
75.	12172	मैसर्स सरबजोत फाइनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	102.	12324	मैसर्स शिव शक्ति एल्युमिनियम प्राईवेट लिमिटेड
76.	12179	मैसर्स बेन्ज फाइनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	103.	12322	मैसर्स काहन कैमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
77.	12182	मैसर्स आशीर्वाद हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड	104.	12335	मैसर्स स्पीडेज टायर डिस्ट्रीब्यूटरज प्राईवेट लिमिटेड
78.	12194	मैसर्स मिडास फिस्कल सर्विसेस लिमिटेड	105.	12342	मैसर्स बाडाइल फाईनांस कं. प्राईवेट लिमिटेड
79.	12197	मैसर्स के. सी. सन्स फाइनेन्स प्राईवेट लिमिटेड	106.	12343	मैसर्स आशीष लीजिंग एण्ड फाइनैस लिमिटेड
80.	12210	मैसर्स अर्थन एनर्जीस लिमिटेड	107.	12344	मैसर्स ईशान क्रेडिटस लिमिटेड
81.	12213	मैसर्स स्वान्स ऑटो विंग्स प्राईवेट लिमिटेड	108.	12345	मैसर्स सेनेटिव एजेनसिज प्राईवेट लिमिटेड
82.	12219	मैसर्स सोनी डिपोजिट्स एण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	109.	12348	मैसर्स सागर सतिया फाईनांस प्राईवेट लिमिटेड
83.	12215	मैसर्स रॉयल एडवर्टाईजिंग प्राईवेट लिमिटेड	110.	12353	मैसर्स ऐ. पी. इलेक्ट्रोनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
84.	12230	मैसर्स करन टैक्नो फाइनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	111.	12367	मैसर्स चैम्पियन स्पिनर्स प्राईवेट लिमिटेड
85.	12247	मैसर्स सुंदर सोलवेक्स प्राईवेट लिमिटेड	112.	12375	मैसर्स ए. कुमार इन्वेस्टमेंट्स एण्ड सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
86.	12248	मैसर्स सेतिया फूड्स लिमिटेड	113.	12391	मैसर्स जय शिव एक्सपोर्ट्स एण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
87.	12250	मैसर्स मल्टीटेक फैब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड	114.	12393	मैसर्स नितिन सेल्स एण्ड इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
88.	12251	मैसर्स साभी फाइनेन्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	115.	12386	मैसर्स डोरल्फन कण्डक्टरस प्राईवेट लिमिटेड
89.	12245	मैसर्स दीवान कैपिटल ग्रोथ लिमिटेड	116.	12403	मैसर्स प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
90.	12271	मैसर्स ग्रेवाल ऑटो एडवांसिस प्राईवेट लिमिटेड	117.	12411	मैसर्स कपूरथला फाईनांस प्राईवेट लिमिटेड
91.	12275	मैसर्स क्रियेटिक मार्किटिंग एण्ड कंसलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	118.	12415	मैसर्स डी. एन. फर्टिलाइजर्स प्राईवेट लिमिटेड
92.	12277	मैसर्स महावीर स्ट्रीपस प्राईवेट लिमिटेड	119.	12420	मैसर्स सारके इन्वेस्टमेंट एण्ड फाईनांस प्राईवेट लिमिटेड
93.	12270	मैसर्स स्वागत मारबल्स प्राईवेट लिमिटेड	120.	12422	मैसर्स गलैक्सी एग्रो लिमिटेड
94.	12291	मैसर्स सामाना एग्रोस प्राईवेट लिमिटेड	121.	12426	मैसर्स मोहित डिपोजिट्स एण्ड एडवांसिज प्राईवेट लिमिटेड
95.	12290	मैसर्स इंडो-यूरोपियन एग्रो लिमिटेड	122.	12432	मैसर्स गुरतेज हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड
96.	12301	मैसर्स सिमरीन कंसलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	123.	12435	मैसर्स वरिन्द्र रोलर फ्लोर मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
97.	12309	मैसर्स जयजीत फाइनैस एण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	124.	12438	मैसर्स सादाना मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
98.	12307	मैसर्स सील एण्ड हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड	125.	12434	मैसर्स नोरवेस्ट फोरेस्ट्स एण्ड हाउसिंग डेवलपमेंट्स लिमिटेड
99.	12319	मैसर्स पासला एग्रीकलचरल एण्ड जनरल फाईनांस कं. लिमिटेड	126.	12440	मैसर्स जेमिनी एक्सपो एण्ड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
100.	12316	मैसर्स पी. बी. हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड	127.	12441	मैसर्स जयकरन एडवर्टाईजिंग प्राईवेट लिमिटेड
			128.	12446	मैसर्स कोलम्बो फोटो कं. प्राईवेट लिमिटेड
			129.	12463	मैसर्स चण्डीगढ़ सेक्रीटेरियल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
			130.	12464	मैसर्स बी. जी. फाइनैशियल कंसलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
131.	12467	मैसर्स इन्द्र इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
132.	12481	मैसर्स दशमेश फिनलीज सर्विसज प्राईवेट लिमिटेड
133.	12510	मैसर्स चड्डा हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड
134.	12511	मैसर्स रामा गिनर्स प्राईवेट लिमिटेड
135.	12512	मैसर्स ओलख फाइनांसिज एण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
136.	12520	मैसर्स वेस्टकोस्ट इम्पैक्स प्राईवेट लिमिटेड
137.	12551	मैसर्स मनदीप डिपोसिटस एण्ड एडवांसिज प्राईवेट लिमिटेड
138.	12545	मैसर्स कांडी लीजिंग लिमिटेड
139.	12548	मैसर्स शशवट फाइनेंशियल सर्विसज प्राईवेट लिमिटेड
140.	12555	मैसर्स मित्तल सोलवेक्स एण्ड एल्योज प्राईवेट लिमिटेड
141.	12556	मैसर्स करक्स हायर परचेस एण्ड लीजिंग कं. लिमिटेड
142.	12572	मैसर्स आशीष प्लानटेशनस लिमिटेड
143.	12583	मैसर्स जनता कॉटन एण्ड फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
144.	12589	मैसर्स एस एल ट्रेवलज एण्ड लेजन्स कंसल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
145.	12602	मैसर्स ए क्लास फाइनांस प्राईवेट लिमिटेड
146.	12608	मैसर्स हर सिमरन लीजिंग एण्ड फाइनांस प्राईवेट लिमिटेड
147.	12616	मैसर्स मेडीविजन लेबोरेटरीज प्राईवेट लिमिटेड
148.	12618	मैसर्स एम. के. डिपोसिटस एण्ड एडवांसिज प्राईवेट लिमिटेड
149.	12627	मैसर्स गोल्डन अर्थ लिमिटेड
150.	12630	मैसर्स मालवा फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
151.	12639	मैसर्स क्रोस्ट सर्टिफिकेशन सिस्टमस प्राईवेट लिमिटेड
152.	12641	मैसर्स दशमेश फाइनेंशियल सर्विसज प्राईवेट लिमिटेड
153.	12656	मैसर्स डेल्टा कण्डक्टरज एण्ड नोन फ़ैरस्स एल्योज प्राईवेट लिमिटेड
154.	12685	मैसर्स ब्रदर्स आटो हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड
155.	12696	मैसर्स फाल्कन टी एण्ड एम इंटरप्राइजेस प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
156.	12707	मैसर्स बीआईसी इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
157.	12713	मैसर्स नगल कैमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
158.	12714	मैसर्स नियूमैटो कम्प्यूटरज प्राईवेट लिमिटेड
159.	12720	मैसर्स ओरबिट फोरेस्टस लिमिटेड
160.	12725	मैसर्स कम्पोजिट कंस्ट्रक्शनस प्राईवेट लिमिटेड
161.	12734	मैसर्स रैनबैक्सी इंटरप्राइसिज प्राईवेट लिमिटेड
162.	12744	मैसर्स डायमण्ड डिपोसिटस एण्ड एडवांसिज प्राईवेट लिमिटेड
163.	12754	मैसर्स सिद्ध हायर परचेस प्राईवेट लिमिटेड
164.	12755	मैसर्स बवेजा फाइनेंसियरज प्राईवेट लिमिटेड
165.	12762	मैसर्स हरजिओ फाइनांस प्राईवेट लिमिटेड
166.	12765	मैसर्स धनजू एण्ड संधू हायर परचेस प्राईवेट लिमिटेड
167.	12772	मैसर्स भोगन फाइनांस कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
168.	12773	मैसर्स ऐवरशाइन कोनकास्ट प्राईवेट लिमिटेड
169.	12778	मैसर्स आगाज इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
170.	12797	मैसर्स यूनिक जनरल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड
171.	12803	मैसर्स नेभर फाइनेंशियरस प्राईवेट लिमिटेड
172.	12808	मैसर्स रब फाइनेंशियल एण्ड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
173.	12812	मैसर्स बेदी टायर सेंटर प्राईवेट लिमिटेड
174.	12815	मैसर्स फेको पेपर एण्ड मैक प्राईवेट लिमिटेड
175.	12819	मैसर्स टी बी के हायर परचेस प्राईवेट लिमिटेड
176.	12825	मैसर्स सुखमनी पेपरस लिमिटेड
177.	12827	मैसर्स फगवाड़ा स्टोक ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
178.	12836	मैसर्स पीपीआर डिपोसिटस एण्ड एडवांसिज प्राईवेट लिमिटेड
179.	12848	मैसर्स अटवाल सिंथैटिकस लिमिटेड
180.	12851	मैसर्स राणा हायर परचेस प्राईवेट लिमिटेड
181.	12852	मैसर्स पिकरिक एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
182.	12870	मैसर्स मोहाली स्टोक एण्ड शेयर सर्विसज प्राईवेट लिमिटेड
183.	12874	मैसर्स पंजाब इंसेक्टिसाईडज लिमिटेड
184.	12879	मैसर्स ओमेक्स रबर प्राईवेट लिमिटेड
185.	12890	मैसर्स मनप्रीत हायर परचेस प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
186.	12903	मैसर्स ई. एम. एम. सन्स फाइनांस एण्ड एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	214.	13172	मैसर्स राजदीप ऐग्रो-टेक प्राईवेट लिमिटेड
187.	12931	मैसर्स बरनाला शेयर मरचेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	215.	13185	मैसर्स प्रिगस एक्सप्रेस प्राईवेट लिमिटेड
188.	12932	मैसर्स मैनी लीजिंग एण्ड फाइनेंशियल सर्विसज लिमिटेड	216.	13190	मैसर्स अम्बाला लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड
189.	12938	मैसर्स राजपुरा फाइनांस एण्ड लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड	217.	13198	मैसर्स थरड आई विजन प्राईवेट लिमिटेड
190.	12958	मैसर्स फिलकान इलैक्ट्रीकल्स प्राईवेट लिमिटेड	218.	13209	मैसर्स जसकरन गाखल हायर परचेस प्राईवेट लिमिटेड
191.	12971	मैसर्स सिटीजन स्टोक इन्वैस्टरज प्राईवेट लिमिटेड	219.	13210	मैसर्स हरसिमरन हायर परचेस प्राईवेट लिमिटेड
192.	12980	मैसर्स गामा डाइग्नोस्टिक एण्ड रिसर्च सेंटर प्राईवेट लिमिटेड	220.	13216	मैसर्स गुरू अमरदास टैक्सटाइलज प्राईवेट लिमिटेड
193.	13002	मैसर्स सुभाष कास्टिंग्स प्राईवेट लिमिटेड	221.	13220	मैसर्स चावला फ्लोर मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
194.	13011	मैसर्स सरप्रिया फोरेस्ट्स इंडिया लिमिटेड	222.	13223	मैसर्स सामरा एम्ब्रो टेक प्राईवेट लिमिटेड
195.	13032	मैसर्स कौशल डाईंग एण्ड फिनिशिंग मिल्स प्राईवेट लिमिटेड	223.	13225	मैसर्स प्रिंस लैमिनेटिड बैल्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
196.	13040	मैसर्स टी. एस. एण्डवांसिज एण्ड डिपोजिट्स प्राईवेट लिमिटेड	224.	13227	मैसर्स साहिल मेटल एण्ड स्क्रैप कांटेक्टरस प्राईवेट लिमिटेड
197.	13041	मैसर्स भाग्यश्री लीजिंग एण्ड डिपोजिट्स प्राईवेट लिमिटेड	225.	13228	मैसर्स जे. टी. स्टील टयूब्स प्राईवेट लिमिटेड
198.	13055	मैसर्स मोंगा ब्ल्यू फलेम्स लिमिटेड	226.	13231	मैसर्स राम हरी फाइनेंशियर प्राईवेट लिमिटेड
199.	13066	मैसर्स परमहंस फाइनेंस प्राईवेट लिमिटेड	227.	13288	मैसर्स मोडैला निर्ययिज लिमिटेड
200.	13079	मैसर्स जिम्मी फाइनांस लिमिटेड	228.	13242	मैसर्स अलावलपुर फाइनांस प्राईवेट लिमिटेड
201.	13094	मैसर्स सोलजर्स हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड	229.	13244	मैसर्स क्वीक डिपोजिट्स एण्ड एण्डवांसिज प्राईवेट लिमिटेड
202.	13088	मैसर्स ओवरलाईन कंस्ट्रक्शनस प्राईवेट लिमिटेड	230.	13241	मैसर्स विश्वास सिमेंट प्राईवेट लिमिटेड
203.	13090	मैसर्स जय दुर्गा हायर परचेस एण्ड लीजिंग कं. प्राईवेट लिमिटेड	231.	13264	मैसर्स हरगोबिंद ऐग्रो सिस्टमस प्राईवेट लिमिटेड
204.	13113	मैसर्स पैसेफिक लैबोरेटरीज प्राईवेट लिमिटेड	232.	13267	मैसर्स रिजैसी क्रेडिट्स प्राईवेट लिमिटेड
205.	13117	मैसर्स सरस क्रेडिट्स प्राईवेट लिमिटेड	233.	13285	मैसर्स रोजवैल कंस्ट्रक्शनस कं. प्राईवेट लिमिटेड
206.	13123	मैसर्स क्वेस्ट कम्प्यूटरज प्राईवेट लिमिटेड	234.	13292	मैसर्स टिंडा फाइनांस प्राईवेट लिमिटेड
207.	13125	मैसर्स शाहिबजादे होटल्स प्राईवेट लिमिटेड	235.	13296	मैसर्स प्रेम जिंदल फाइनांशियर्स प्राईवेट लिमिटेड
208.	13128	मैसर्स अरली लीजिंग कं. प्राईवेट लिमिटेड	236.	13302	मैसर्स गोल्डन स्टार होटल प्राईवेट लिमिटेड
209.	13129	मैसर्स अंगूरला इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड	237.	13303	मैसर्स एन. एन. पूरी एण्ड कम्पनी फाइनेंशियल सर्विसज प्राईवेट लिमिटेड
210.	13130	मैसर्स टांगरी फैब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड	238.	13300	मैसर्स बुकमैन एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
211.	13146	मैसर्स जोत हायर परचेस एण्ड फाइनांस प्राईवेट लिमिटेड	239.	13304	मैसर्स ओम लैम्पस प्राईवेट लिमिटेड
212.	13155	मैसर्स लक्की इंटरप्राइसिज प्राईवेट लिमिटेड	240.	13320	मैसर्स हमदर्द हायर परचेस प्राईवेट लिमिटेड
213.	13174	मैसर्स अल्का ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड	241.	13324	मैसर्स नोबल डिपोजिट्स एण्ड एडवांसिज प्राईवेट लिमिटेड
			242.	13343	मैसर्स ऊजागर एडवांसिज लिमिटेड
			243.	13353	मैसर्स माहीलपुर एडवांसिज प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
244.	13354	मैसर्स जसदीप हायर परचेस प्राईवेट लिमिटेड
245.	13371	मैसर्स जेय एम टैक्स लिमिटेड
246.	13376	मैसर्स लछमन ऑटो फाइनांस प्राईवेट लिमिटेड
247.	13382	मैसर्स अपैनजिल रेमेडिज एण्ड इंटरप्राईसिज प्राईवेट लिमिटेड
248.	13384	मैसर्स दर्पण टेक्नोप्लासट प्राईवेट लिमिटेड
249.	13386	मैसर्स प्रोटियस लीज फाइनांस प्राईवेट लिमिटेड
250.	13389	मैसर्स सदाशिव काम्पट्रोनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
251.	13387	मैसर्स पूजा डिपोसिटस एण्ड ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
252.	13392	मैसर्स गिल शर्मा फाइनांस कं. प्राईवेट लिमिटेड
253.	13395	मैसर्स पठानकोट डिपोसिटस एण्ड लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड
254.	13398	मैसर्स गोल्डन ऑटो एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
255.	13397	मैसर्स ब्रोडवेय साइकिल्स प्राईवेट लिमिटेड
256.	13401	मैसर्स पॉल लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड
257.	13420	मैसर्स पी. के. जे. फानैशियरस एण्ड लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड
258.	13438	मैसर्स जालंधर फेटे कैरियरस प्राईवेट लिमिटेड
259.	13437	मैसर्स अमर मेटरिटी हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर प्राईवेट लिमिटेड
260.	13467	मैसर्स अमृतसर ऑटोस प्राईवेट लिमिटेड
261.	13483	मैसर्स हिमालय डिपोसिटस एण्ड एडवांसिस प्राईवेट लिमिटेड
262.	13497	मैसर्स होशियारपुर आजाद बस सर्विस प्राईवेट लिमिटेड
263.	13498	मैसर्स संधू डिपोसिटस एण्ड इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड
264.	13499	मैसर्स ए. एस. फाइनांस एण्ड लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड
265.	13500	मैसर्स जीएमपी मकैनिकल इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
266.	13509	मैसर्स चाँद फेयरडील फाइनैशियरस प्राईवेट लिमिटेड
267.	13525	मैसर्स पैसेफिक पेपर प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
268.	13532	मैसर्स जिंदल फाइनैशियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कंसलटेंसी सर्विसज प्राईवेट लिमिटेड
269.	13550	मैसर्स कस्तूरी कैमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
270.	13573	मैसर्स प्राइम कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
271.	13577	मैसर्स साई स्पोर्ट्स एण्ड फैशनवियर प्राईवेट लिमिटेड
272.	13586	मैसर्स प्रहार सेल्स प्राईवेट लिमिटेड
273.	13585	मैसर्स सील एण्ड डिपोसिटस एण्ड एडवांसिस प्राईवेट लिमिटेड
274.	13587	मैसर्स एमको वील्स प्राईवेट लिमिटेड
275.	13592	मैसर्स साहिब बोटीलिंग एण्ड पेट्रोलियम गैसिस प्राईवेट लिमिटेड
276.	13593	मैसर्स सरदार वूलेन मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
277.	13597	मैसर्स शांति मिलक फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
278.	13600	मैसर्स मंगलम फैर्रो प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
279.	13615	मैसर्स एन एम वूलन मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
280.	13621	मैसर्स रावी फाइनांस एण्ड लीजिंग कं. प्राईवेट लिमिटेड
281.	13624	मैसर्स पी. के. सीलिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
282.	13630	मैसर्स लीओ हायर परचेस प्राईवेट लिमिटेड
283.	13628	मैसर्स ग्रीन डायमण्ड फोरेसट्स इंडिया लिमिटेड
284.	13633	मैसर्स आहूजा रबर प्राईवेट लिमिटेड
285.	13637	मैसर्स ईस्ट वेस्ट कोरियरस प्राईवेट लिमिटेड
286.	13641	मैसर्स फ्रेंड्स पोलिपैक प्राईवेट लिमिटेड
287.	13644	मैसर्स जी. एन. स्टीलस प्राईवेट लिमिटेड
288.	13648	मैसर्स बीर हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड
289.	13646	मैसर्स जय. बी. इण्डस्ट्रीस प्राईवेट लिमिटेड
290.	13653	मैसर्स स्काई हाई फार्मासियुटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
291.	13664	मैसर्स हनीडियू डिपोसिटस एण्ड एडवांसिस प्राईवेट लिमिटेड
292.	13667	मैसर्स जय श्री पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
293.	13671	मैसर्स पंजाब क्रेडिटस प्राईवेट लिमिटेड
294.	13685	मैसर्स एम परमार हायर परचेस प्राईवेट लिमिटेड
295.	13695	मैसर्स अजमेर फाइनांस प्राईवेट लिमिटेड
296.	13706	मैसर्स पंज प्लास्ट लिमिटेड
297.	13711	मैसर्स हेमकुण्ड होमस एण्ड लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड
298.	13725	मैसर्स स्टैप-इन फाइनांस एण्ड लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
299.	13732	मैसर्स बी. सी. हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड	329.	13987	मैसर्स स्वामी प्रोपर्टी कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
300.	13758	मैसर्स एल. सी. ओसवाल वूलनस प्राईवेट लिमिटेड	330.	13999	मैसर्स गुप्ता कैरोसीन ऑयल प्राईवेट लिमिटेड
301.	13756	मैसर्स ट्रीयून एग्रो फूड्स लिमिटेड	331.	14006	मैसर्स शीतल फैबरीकेट्स प्राईवेट लिमिटेड
302.	13777	मैसर्स मिलन डिपोजिट्स एण्ड एडवांसिस प्राईवेट लिमिटेड	332.	14009	मैसर्स अग्रवाल एडवांसिस एण्ड डिपोजिट्स प्राईवेट लिमिटेड
303.	13801	मैसर्स बिसवाम्बरो वायर निटिंग प्राईवेट लिमिटेड	333.	14007	मैसर्स गुगो होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
304.	13796	मैसर्स ओरिजा कंस्ट्रक्शन्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	334.	14013	मैसर्स गोल्डस्टार डिपोजिट्स एण्ड एडवांसिस प्राईवेट लिमिटेड
305.	13818	मैसर्स नोरथन ऐग्रीकल्चरल डेवलपमेंट लिमिटेड	335.	14016	मैसर्स पाइवेटल फाइनांशियल & सर्विसज प्राईवेट लिमिटेड
306.	13820	मैसर्स शिरोमनी पेपर्स प्राईवेट लिमिटेड	336.	14033	मैसर्स सुदर्शन हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड
307.	13821	मैसर्स ओकासा पेट्रोलियमस प्राईवेट लिमिटेड	337.	14035	मैसर्स एम एफ टायर्स लिमिटेड
308.	13822	मैसर्स सुरजीत सिंघ एण्ड कम्पनी बिल्डर्स फाइनांशियर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड	338.	14028	मैसर्स कोलोनेल्स मार्किटिंग प्राईवेट लिमिटेड
309.	13831	मैसर्स कूनर फाइनांस प्राईवेट लिमिटेड	339.	14029	मैसर्स त्रार्थन कॉलजाब प्राईवेट लिमिटेड
310.	13838	मैसर्स जेयिच मैथालिक्स प्राईवेट लिमिटेड	340.	14040	मैसर्स भांगू फाइनांस एण्ड इनवैस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड
311.	13835	मैसर्स एस. आर. एम. बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड	341.	14050	मैसर्स पंचम प्लानर्स लिमिटेड
312.	13869	मैसर्स सूर्या मिल्क स्पेशियलटीस प्राईवेट लिमिटेड	342.	14049	मैसर्स सिलीकॉन इनफोरमेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
313.	13867	मैसर्स स्मृतशायी एग्रो मिलर्स प्राईवेट लिमिटेड	343.	14054	मैसर्स श्रद्धा हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड
314.	13872	मैसर्स जसजीत हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड	344.	14055	मैसर्स एस बी आर सेरामिक्स प्राईवेट लिमिटेड
315.	13876	मैसर्स अमरदीप ऑयल्स प्राईवेट लिमिटेड	345.	14059	मैसर्स कमल फाइनांस प्राईवेट लिमिटेड
316.	13876	मैसर्स सपूरी एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	346.	14057	मैसर्स शैली इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
317.	13881	मैसर्स मोहन केयरपाल एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	347.	14068	मैसर्स किसराज ओवरसीस प्राईवेट लिमिटेड
318.	13882	मैसर्स आर. के. क्रोपिकल्स प्राईवेट लिमिटेड	348.	14072	मैसर्स एच के हाईवे सर्विसिज प्राईवेट लिमिटेड
319.	13883	मैसर्स बाबा फरीद इनवैस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड	349.	14075	मैसर्स वेलेनटाइन एक्सपोर्ट्स एण्ड मार्किटिंग प्राईवेट लिमिटेड
320.	13887	मैसर्स चैलसी फाइनांस एण्ड इनवैस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	350.	14094	मैसर्स फाल्कॉन ऑटोस प्राईवेट लिमिटेड
321.	13909	मैसर्स शालीमार पिचर्स प्राईवेट लिमिटेड	351.	14100	मैसर्स गोल्डन वेक्स एडवर्टाइजिंग लिमिटेड
322.	13918	मैसर्स कंवर कमेशवर फाइनांशियर्स प्राईवेट लिमिटेड	352.	14106	मैसर्स बालिया डिपोजिट्स प्राईवेट लिमिटेड
323.	13926	मैसर्स पी. के. हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड	353.	14109	मैसर्स भानोट सोल्वेक्स प्राईवेट लिमिटेड
324.	13942	मैसर्स दशमेश वॉटर मीटर्स प्राईवेट लिमिटेड	354.	14132	मैसर्स सिगमा फाइनांशियर्स प्राईवेट लिमिटेड
325.	13943	मैसर्स जे. एम. एग्रो प्राईवेट लिमिटेड	355.	14152	मैसर्स कॉग इनूस प्राईवेट लिमिटेड
326.	13961	मैसर्स पंजाब पम्पस प्राईवेट लिमिटेड	356.	14157	मैसर्स आपटा मार्किटिंग सिंडिकेट प्राईवेट लिमिटेड
327.	13970	मैसर्स जसविंदर फाइनांस प्राईवेट लिमिटेड	357.	14176	मैसर्स अमृतसर फलावर्स एण्ड हबर्स प्राईवेट लिमिटेड
328.	13974	मैसर्स बाबा बुड्डा साहिब फाइनांस प्राईवेट लिमिटेड			

1	2	3
358.	14179	मैसर्स मानपोरेट फाइनांशियल सर्विसिज प्राईवेट लिमिटेड
359.	14194	मैसर्स करमयोगी टैक्सटाइल मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
360.	14195	मैसर्स जेनिस ऑटो प्राईवेट लिमिटेड
361.	14203	मैसर्स एमएसएल इनवैस्टमेंट्स लिमिटेड
362.	14205	मैसर्स सोलीडेयर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड
363.	14219	मैसर्स डी. के. फाइनांशियल सर्विसिज प्राईवेट लिमिटेड
364.	14220	मैसर्स निझर हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड
365.	14221	मैसर्स ओमेगा ऑटो केबल्स प्राईवेट लिमिटेड
366.	14235	मैसर्स अमृतसर ब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड
367.	14242	मैसर्स एस के डिपोजिट्स एण्ड एडवांसिस प्राईवेट लिमिटेड
368.	14248	मैसर्स राइसिंग सन फाइनांस प्राईवेट लिमिटेड
369.	14260	मैसर्स भगवती पेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
370.	14276	मैसर्स नील ट्यूब्स प्राईवेट लिमिटेड
371.	14281	मैसर्स कमीटमेंट इम्पोर्ट्स एण्ड एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
372.	14277	मैसर्स रामसन इलैक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
373.	14282	मैसर्स मधुर कुंज फाइनांस प्राईवेट लिमिटेड
374.	14286	मैसर्स & सराई ऑटोइलैक्ट्रिक प्राईवेट लिमिटेड
375.	14297	मैसर्स हरबंस लीजिंग एण्ड इन्वैस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
376.	14289	मैसर्स गोलडन लीज फाइनांस लिमिटेड
377.	14302	मैसर्स बी के आर एग्रो प्राईवेट लिमिटेड
378.	14300	मैसर्स प्रोफब सिस्टम इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
379.	14316	मैसर्स एस एस चौहान रिसोर्ट्स एण्ड फाइनांशियर्स प्राईवेट लिमिटेड
380.	14320	मैसर्स मुल्तानी इन्वैस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
381.	14326	मैसर्स सुखाना इंफोमैक प्राईवेट लिमिटेड
382.	14331	मैसर्स माखी फाइनांशियर्स प्राईवेट लिमिटेड
383.	14389	मैसर्स नावेक्स फार्मास्युटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
384.	14397	मैसर्स होशियारपुर फाइनांशियल सर्विसिज लिमिटेड
385.	14398	मैसर्स वडाला फाइनांस प्राईवेट लिमिटेड
386.	14402	मैसर्स शिव शंकर फाइनांस प्राईवेट लिमिटेड
387.	14406	मैसर्स एडवांस मीडिया हाऊस प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
388.	14427	मैसर्स सफीना रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
389.	14429	मैसर्स पैनागयून कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
390.	14436	मैसर्स जिंदल माइक्रो सर्किट्स प्राईवेट लिमिटेड
391.	14442	मैसर्स पीर फिनलीज प्राईवेट लिमिटेड
392.	14460	मैसर्स शिवालिकवाला कंस्ट्रक्शंस कं. लिमिटेड
393.	14483	मैसर्स टीना फाइनांस प्राईवेट लिमिटेड
394.	14484	मैसर्स न्यू लाइट डिपोजिट्स एण्ड एडवांसिस प्राईवेट लिमिटेड
395.	14489	मैसर्स मोनिंदर हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड
396.	14482	मैसर्स एक्सैलो मार्किटिंग एण्ड एसोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
397.	14492	मैसर्स पैरेडाइज फोरजिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
398.	14506	मैसर्स सिद्धार्थ फयूल्स प्राईवेट लिमिटेड
399.	14502	मैसर्स रिजेंसी स्टील ट्यूब्स प्राईवेट लिमिटेड
400.	14510	मैसर्स धीमान कोच बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
401.	14516	मैसर्स बिलासपुर इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
402.	14529	मैसर्स सोहल शेखानल क्रेडिट्स प्राईवेट लिमिटेड
403.	14530	मैसर्स निंदी फाइनांस प्राईवेट लिमिटेड
404.	14533	मैसर्स सुखमनी एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
405.	14534	मैसर्स श्री माया इन्वैस्टमेंट एण्ड फाइनांस प्राईवेट लिमिटेड
406.	14544	मैसर्स तेजिन्द्र डिपोजिट्स एण्ड एडवांसिस प्राईवेट लिमिटेड
407.	14549	मैसर्स गरीब नावाज़ हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड
408.	14556	मैसर्स सुप्रिया रबर्स प्राईवेट लिमिटेड
409.	14557	मैसर्स अरगस फाइनांस प्राईवेट लिमिटेड
410.	14561	मैसर्स राओय बरार इन्वैस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
411.	14562	मैसर्स मिश्रा फार्मास्युटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
412.	22249	मैसर्स मैट्रोपोलिस ओवरसीस प्राईवेट लिमिटेड
413.	14586	मैसर्स मलिक एण्ड जिंदल कैपिटल सर्विसिज प्राईवेट लिमिटेड
414.	14587	मैसर्स मुरघई हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड
415.	14581	मैसर्स एस फौज़दार सिंह एण्ड सन्स फाइनांशियर्स प्राईवेट लिमिटेड
416.	14597	मैसर्स स्वरन सुख हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
417.	14595	मैसर्स के. बी. डिपोज़िट्स एण्ड एडवांसिस प्राईवेट लिमिटेड	445.	14742	मैसर्स वरुण एग्रो एप्लाइसिस प्राईवेट लिमिटेड
418.	14615	मैसर्स सुविधा कैपिटल सर्विसिज प्राईवेट लिमिटेड	446.	14746	मैसर्स मालवा कैपिटल सर्विसिज प्राईवेट लिमिटेड
419.	14618	मैसर्स पिल्सबरी फूड्स प्राईवेट लिमिटेड	447.	14754	मैसर्स संघेरा फाइनांसियर्स प्राईवेट लिमिटेड
420.	14622	मैसर्स लुधियाना इन्वायरनमेंट रिसर्च सेंटर प्राईवेट लिमिटेड	448.	14760	मैसर्स रंजीत हैमर्स प्राईवेट लिमिटेड
421.	14625	मैसर्स संधा एण्ड गिल फाइनांस एण्ड इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड	449.	14763	मैसर्स रेनसन एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
422.	22386	मैसर्स ग्रीनेज फाइनांस प्राईवेट लिमिटेड	450.	14771	मैसर्स पूनम कैपिटल सर्विसिज प्राईवेट लिमिटेड
423.	29088	मैसर्स यू एस टारुनशिप डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड	451.	14772	मैसर्स रायल कास्मिक इंटरप्राइसिज प्राईवेट लिमिटेड
424.	31056	मैसर्स बैगस फाइनांशियल सर्विसिज प्राईवेट लिमिटेड	452.	14775	मैसर्स सन चेसर होज़री मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
425.	08271	मैसर्स शरन सेल्स प्राईवेट लिमिटेड	453.	14785	मैसर्स बच्चन एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
426.	14626	मैसर्स सेठी हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड	454.	14795	मैसर्स नानकसर टायर्स प्राईवेट लिमिटेड
427.	14632	मैसर्स बनारसी डेयरीस प्राईवेट लिमिटेड	455.	14806	मैसर्स कंगारू मेटाल्प्लास्ट प्राईवेट लिमिटेड
428.	14630	मैसर्स तेजवीर कम्प्यूटेल प्राईवेट लिमिटेड	456.	14808	मैसर्स पावर स्पोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
429.	14635	मैसर्स परफेक्ट एग्रो मिल्स प्राईवेट लिमिटेड	457.	14801	मैसर्स टफ पोलिपैक्स प्राईवेट लिमिटेड
430.	14643	मैसर्स परमदेव फाइनांस एण्ड इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड	458.	14814	मैसर्स गगन फीड मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
431.	14644	मैसर्स प्रयास गारमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	459.	14816	मैसर्स मल्टीपल टेकनो एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
432.	14645	मैसर्स हरजन स्पिनिंग मिल्स प्राईवेट लिमिटेड	460.	14825	मैसर्स सुनैना एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
433.	14647	मैसर्स तरसेम हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड	461.	14834	मैसर्स के. बी. के. हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड
434.	14649	मैसर्स नाकोदर डिपोज़िट्स एण्ड एडवांसिस प्राईवेट लिमिटेड	462.	14840	मैसर्स बोद्धे फाइनांस प्राईवेट लिमिटेड
435.	14667	मैसर्स अमीर होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड	463.	14847	मैसर्स शम्मी हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड
436.	14682	मैसर्स रविसन फूड्स प्राईवेट लिमिटेड	464.	14852	मैसर्स एसपन डाटामैट्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड
437.	14686	मैसर्स अरिहंत निटिंग्स प्राईवेट लिमिटेड	465.	14868	मैसर्स टी एफ सी लीजिंग एण्ड फाइनांस प्राईवेट लिमिटेड
438.	14694	मैसर्स जे. एस. एडवाइजर्स एण्ड कंसल्टैंट्स प्राईवेट लिमिटेड	466.	14877	मैसर्स बटाला डिपोज़िट्स एण्ड एडवांसिस प्राईवेट लिमिटेड
439.	14696	मैसर्स जीएमटी फ्यूल ब्रीकेट्स प्राईवेट लिमिटेड	467.	14882	मैसर्स डॉक्टर हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड
440.	14707	मैसर्स तारिनी फाइनांशियर्स प्राईवेट लिमिटेड	468.	14888	मैसर्स गोल्डलाईन डिस्ट्रीलर्स एण्ड ब्रियुअर्स प्राईवेट लिमिटेड
441.	14733	मैसर्स मल्टीकेयर फाइनांशियल सर्विसिज प्राईवेट लिमिटेड	469.	14885	मैसर्स ऐलीगेंट मोडिया सर्विसिज प्राईवेट लिमिटेड
442.	14737	मैसर्स अल्फा कोन्स प्राईवेट लिमिटेड	470.	14890	मैसर्स मेरीडिक एजेंसीज प्राईवेट लिमिटेड
443.	14739	मैसर्स कामसन एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	471.	14897	मैसर्स केल हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड
444.	14741	मैसर्स सरूप हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड	472.	14920	मैसर्स तरनीत लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड
			473.	14922	मैसर्स मोनफिन इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड
			474.	14923	मैसर्स वी एम एन फिनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड
			475.	14931	मैसर्स जिन्नी प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
476.	14937	मैसर्स भगवती एलोयस प्राईवेट लिमिटेड
477.	14941	मैसर्स करन मोर्ट्स हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड
478.	14943	मैसर्स न्यू यर्म्स मीडिया सिंडीकेशन प्राईवेट लिमिटेड
479.	14944	मैसर्स स्टेलियन फामास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
480.	14947	मैसर्स एस्ट्रो बिजनेस प्रमोटर्स प्राईवेट लिमिटेड
481.	14957	मैसर्स & प्रोटस फाइनांशियल एण्ड मैनेजमेंट सर्विसज प्राईवेट लिमिटेड
482.	14965	मैसर्स चौहान नर्सिंग होम प्राईवेट लिमिटेड
483.	14971	मैसर्स युनाइटेड फनलैंड प्राईवेट लिमिटेड
484.	14973	मैसर्स गुरदित फाइनांसियर्स प्राईवेट लिमिटेड
485.	14978	मैसर्स मैरी बोर्ड्स प्राईवेट लिमिटेड
486.	14976	मैसर्स के. एस. सीलिंगस प्राईवेट लिमिटेड
487.	14975	मैसर्स बंसल सिमेंट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
488.	14977	मैसर्स ब्रैगस इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
489.	14980	मैसर्स अंशुपति फाइनांस एण्ड लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड
490.	14984	मैसर्स शेरपुर इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
491.	14993	मैसर्स गुरमिंदर फायर इक्विपमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
492.	14998	मैसर्स मुशरफ स्टीलस प्राईवेट लिमिटेड
493.	15017	मैसर्स मोडपोली कंटेनरस प्राईवेट लिमिटेड
494.	15007	मैसर्स रिवरइन् होटल्स प्राईवेट लिमिटेड
495.	15008	मैसर्स फास्ट फोरवर्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम प्राईवेट लिमिटेड
496.	15011	मैसर्स यूनिसन कंस्ट्रक्शनस (इंडिया) लिमिटेड
497.	15012	मैसर्स क्यूरियो ओरगेनिकस प्राईवेट लिमिटेड
498.	15013	मैसर्स रिशभ लीजिंग एण्ड फाइनांस प्राईवेट लिमिटेड

डा. राज सिंह
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज
पंजाब एण्ड चण्डीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

शिलांग-793001, दिनांक 19 जून 2012

सं. कं०/560(5)/2011/2101--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है

कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1.	009040	मैसर्स कमलज्योति मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
2.	008553	मैसर्स रेपिड एसीसेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
3.	008312	मैसर्स रॉयल इस्टार कन्सट्रक्शन्स एण्ड डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	007963	मैसर्स डाटाजेन इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड

जी. सी. यादव
कम्पनी रजिस्ट्रार
उ. प्र. क्षेत्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स पोनचंम मार्केटिंग एण्ड कन्सल्टिंग प्राईवेट लिमिटेड
के विषय में

शिलांग-793001, दिनांक 19 जून 2012

सं. कं०/560(3)/2103/010021--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स पोनचंम मार्केटिंग एण्ड कन्सल्टिंग प्राईवेट लिमिटेड नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो उक्त अधिनियम की धारा 560 उपधारा (5) के अनुसार उनके नाम रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

जी. सी. यादव
कम्पनी रजिस्ट्रार
उ. प्र. क्षेत्र

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स रहल तेजा फाइनांस लिमिटेड के विषय में

हैदराबाद-500195, दिनांक 8 जून 2011

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स रहल तेजा फाइनांस लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. सी. नन्द कुमार
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
आन्ध्र प्रदेश

पी. सी. नन्द कुमार
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
आन्ध्र प्रदेश

पी. सी. नन्द कुमार
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
आन्ध्र प्रदेश

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स किम्स ग्रीनलीफ हैल्थकेयर सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
हैदराबाद-500195, दिनांक 21 मई 2011

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसारण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स किम्स ग्रीनलीफ हैल्थकेयर सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. सी. नन्द कुमार
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
आन्ध्र प्रदेश

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

हैदराबाद-500195, दिनांक 19 जून 2012

सं. आर.ओ.सी./560(5)/ईईएस-2012/बीएसजे/1-6--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसारण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित 6 कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1.	042432	मैसर्स एयर स्विफ्ट कार्गो एयरलाइन्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	015696	मैसर्स रेनबो फाइनेंशियल सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
3.	051779	मैसर्स जयशिका एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
4.	019596	मैसर्स भार्गवी हाऊसिंग एण्ड फाइनेन्स लिमिटेड
5.	051821	मैसर्स अल्कानी टेलीफिल्म्स प्राईवेट लिमिटेड
6.	023405	मैसर्स वाल स्ट्रीट सिक्युरिटीज लिमिटेड

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स वेद आयरन एण्ड स्टील प्राईवेट लिमिटेड के विषय में
हैदराबाद-500195, दिनांक 21 मई 2011

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसारण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स वेद आयरन एण्ड स्टील प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

पी. सी. नन्द कुमार
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
आन्ध्र प्रदेश

वी. संतोषी जागिरदार
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
आन्ध्र प्रदेश

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi-110069, the 1st June 2012

No. A-19016/01/2011-Admn.-I—Consequent upon his nomination to CSSS cadre of UPSC on his regular promotion to the post of Principal Private Secretary (PPS) Grade of CSSS of Select List 2010 vide Department of Personnel & Training's O. M. No. 3/3/2011-CS.II(A) dated 20th March, 2012, the President is pleased to appoint Shri Ashok Kumar, PPS (Adhoc) of CSSS cadre, as Principal Private Secretary Grade of CSSS in PB-3 (Rs. 15,600—39,100/-) with Grade Pay of Rs. 6,600/-, in the office of Union Public Service Commission w.e.f. the forenoon of 20.03.2012, i.e. the date of DoP&Trg. OM. until further orders.

NEERAJ SACHDEVA
Under Secy. (Admn.)

No. A-19016/04/2011-Admn.-I—Consequent upon his nomination to CSSS cadre of UPSC on his regular promotion to the post of Principal Private Secretary (PPS) Grade of CSSS of Select List 2010 vide Department of Personnel & Training's O. M. No. 3/3/2011-CS.II(A) dated 20th March, 2012, the President is pleased to appoint Shri R. Ramalingam, PPS (Adhoc) of CSSS cadre, as Principal Private Secretary Grade of CSSS in PB-3 (Rs. 15,600—39,100/-) with Grade Pay of Rs. 6,600/-, in the office of Union Public Service Commission w.e.f. the forenoon of 20.03.2012, i.e. the date of DoP&Trg. OM. until further orders.

NEERAJ SACHDEVA
Under Secy. (Admn.)

No. A-19016/02/2011-Admn.-I—Consequent upon his nomination to CSSS cadre of UPSC on his regular promotion to the post of Principal Private Secretary (PPS) Grade of CSSS of Select List 2010 vide Department of Personnel & Training's O. M. No. 3/3/2011-CS.II(A) dated 20th March, 2012, the President is pleased to appoint Shri Radha Krishan, PPS (Adhoc) of CSSS cadre, as Principal Private Secretary Grade of CSSS in PB-3 (Rs. 15,600—39,100/-) with Grade Pay of Rs. 6,600/-, in the office of Union Public Service Commission w.e.f. the forenoon of 20.03.2012, i.e. the date of DoP&Trg. OM. until further orders.

NEERAJ SACHDEVA
Under Secy. (Admn.)

The 14th June 2012

No. A-35018/03/2007-Admn.II—In continuation to this Office Notification of even number dated 17.02.2010 and pursuant to approval of the Competent Authority, the tenure of deputation of Shri M. Dhananjayan, Assistant, UPSC to the post of Protocol Officer, UPSC, in the revised Pay Structure of PB-2 (Rs. 9,300—34,800/-) with Grade Pay of Rs. 4,800/- (Group-B, Gazetted) is extended further for a

period of one year w.e.f. 16.02.2012 to 15.02.2013 or till further orders, whichever is earlier.

NEERAJ SACHDEVA
Under Secy. (Admn.)

No. A-35018/02/2009-Admn.II—In continuation to this Office Notification of even number dated 29.02.2012, the period of ad hoc deputation of Shri Awadhesh Thakur, Steno 'C', UPSC to the post of Staff Officer to Secretary, UPSC, in the revised Pay Structure of PB-2 (Rs. 9,300—34,800/-) with Grade Pay of Rs. 4,800/- (Group-B, Gazetted) is extended further for a period of three months w.e.f. 29.05.2012 to 28.08.2012 or till further orders, whichever is earlier, with technical break on 28.05.2012.

This issue with the approval of the Competent Authority.

NEERAJ SACHDEVA
Under Secy. (Admn.)

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi-110003, the 13th June 2012

No. DP/PERS.I/2012/0049/3/57/2004—Shri P. Rama Mohan Rao relinquished the charge of Addl. Superintendent of Police, Central Bureau of Investigation with effect from the afternoon of 31.05.2012 on attaining the age of superannuation.

M. SACHDEV
Admn. Officer (Pers.)

The 15th June 2012

No. DP/PERS.I/2012/0051/3/08/2011—The President is pleased to appoint Shri K. Saleem Ali, IPS (MT : 1978) as Special Director in the Central Bureau of Investigation, New Delhi with effect from the forenoon of 24.05.2012 until his superannuation i.e. on 30.11.2013 or till further orders, whichever event takes place earlier.

M. SACHDEV
Admn. Officer (Pers.)

No. DP/PERS.I/2012/0052/3/29/2007—Shri P. Kandaswamy, IPS (TN:1989) has relinquished charge of the office of Joint Director, Central Bureau of Investigation, Mumbai with effect from the afternoon of 27.05.2012, on completion of normal tenure of 5 years at Centre.

M. SACHDEV
Admn. Officer (Pers.)

New Delhi-110003, the 15th June 2012

No. DP/PERS.I/2012/0050/3/50/2011—The President is pleased to appoint Shri Rupak Kumar Dutta, IPS (KTK:1981)

as Additional Director, Central Bureau of Investigation with effect from the forenoon of 11.06.2012 for a period of 4 years or till further orders, whichever event takes place earlier.

S. J. M. GILLANI
Dy. Director (Admn.)

27.05.2013, or until further orders, whichever is earlier, in pursuance of Ministry of Home Affairs Office Memorandum No. I-21017/03/2008-IPS.III dated 8th June, 2012.

DHANI RAM
Asstt. Director (Admn.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(BUREAU OF POLICE RESEARCH & DEVELOPMENT)

New Delhi-110003, the 22nd June 2012

No. 3/32/2010-Admn.—The President is pleased to extend the deputation period of Dr. Ish Kumar, IPS (AP : 85), IG/Director, Bureau of Police Research and Development, Ministry of Home Affairs, Government of India for a period of one year beyond 27.05.2012 i.e. upto

DIRECTORATE GENERAL
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE

New Delhi-110003, the 20th June 2012

No. P.VII-I/2012-Min—Consequent on their promotion to the post of Assistant Commandant (Ministerial), the following Subedar Major (Ministerial) have taken over charge as Assistant Commandant (Ministerial) in the Offices and on the dates as mentioned against each:—

Sl. No.	Name	Office where charge taken over	Date of taking over charge
1.	Shri Ramkishan Raigar, Assistant Commandant (Ministerial) (IRLA-8700)	O/o DIGP, Central Reserve Police Force Neemuch.	02.11.2011 (FN)
2.	Shri Vinay Mohan Sharma, Assistant Commandant (Ministerial) (IRLA-8731)	O/o IGP, Rajasthan Sector, Central Reserve Police Force, Jaipur.	05.12.2011 (FN)
3.	Shri Rakesh Kumar, Assistant Commandant (Ministerial) (IRLA-8672)	O/o DIGP, Group Centre, Central Reserve Police Force, Amethi.	21.11.2011 (FN)
4.	Shri Devendra Singh, Assistant Commandant (Ministerial) (IRLA-9143)	O/o DIGP, Group Centre-I, Central Reserve Police Force, Ajmer.	25.05.2012 (FN)
5.	Shri Raj Singh, Assistant Commandant (Ministerial) (IRLA-8728)	O/o DIGP, Group Centre, Central Reserve Police Force, Sonipat.	12.10.2011 (FN)
6.	Smt. Omwati, Assistant Commandant (Ministerial) (IRLA-8732)	O/o DIGP, Group Centre, Central Reserve Police Force, Sonipat.	12.10.2011 (FN)
7.	Shri Ajay Borah, Assistant Commandant (Ministerial) (IRLA-8744)	O/o IGP, North East Sector, Central Reserve Police Force, Shillong.	11.11.2011 (FN)
8.	Shri Avtar Singh, Assistant Commandant (Ministerial) (IRLA-9144)	O/o IGP, Jammu Sector, Central Reserve Police Force, Jammu.	04.06.2012 (FN)
9.	Shri V.S. Radhakrishnan, Assistant Commandant (Ministerial) (IRLA-9146)	O/o DIGP, Group Centre, Central Reserve Police Force, Hyderabad and Charge taken over at O/o ADG, Southern Zone, Central Reserve Police Force, Hyderabad.	03.05.2012 (FN)
10.	Shri Satpaul Chaudhary, Assistant Commandant (Ministerial) (IRLA-8748)	O/o DIGP, Central Reserve Police Force, Khatkhathi.	05.12.2011 (FN)
11.	Shri S. Chattopadhyay, Assistant Commandant (Ministerial) (IRLA-9138)	O/o IGP, Eastern Sector, Central Reserve Police Force, Kolkata.	11.06.2012 (FN)
12.	Shri B.S.A. Bisht, Assistant Commandant (Ministerial) (IRLA-8681)	O/o DIGP, Group Centre, Central Reserve Police Force, Kathgodam.	11.11.2011 (FN)

G. V. H. GIRI PRASAD
DIGP (Organisation)

DIRECTORATE OF COORDINATION

(POLICE WIRELESS)

New Delhi-3, the 18th June 2012

No. A-17011/39(V-53)/2011-Admn.I—Shri Virendra Kumar Agrawal, Extra Assistant Director of this Directorate has retired from Government Service on attaining the age of superannuation in the afternoon of 31.05.2012.

P. K. SINGHAL
Director

DIRECTOR GENERAL

CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi-3, the 15th June 2012

No. E-16015(2)/32/2009/Pers.I/204—The President is pleased to appoint the following Commandant on regular promotion to the rank of Sr. Commandant, in the Pay Scale of Rs. 37,400—67,000/- (+) Grade Pay of Rs. 8,700/- on regular basis in CISF with effect from the date noted therein:—

Name	Office/Unit where assumed the charge	Date of assumption of charge as Sr. Commandant on regular basis
Shri/Miss		
Deepak Agarwal	FHQRS. New Delhi	04.06.2012 (AN)

Sd/- ILLEGIBLE
Director General/CISF

No. E-16015(2)/32/2009/Pers.I/205—The President is pleased to appoint the following Senior Commandant on regular promotion to the rank of Deputy Inspector General, in the Pay Scale of Rs. 37,400—67,000/- (PB-4) (+) Grade Pay of Rs. 8,900/- on regular basis in CISF with effect from the date noted therein:—

Name	Date of assumption of charge Deputy Inspector General on regular basis
Shri/Miss	
S.P. Selvan	01.06.2012 (FN)

Sd/- ILLEGIBLE
Director General/CISF

The 19th June 2012

CORRIGENDUM

No. E-16013/(1)/AT-DIG/2007/Pers.I/210—The following amendment is made in this Directorate Notification issued

vide letter No. E-16013/(1)/AT-/2007/Pers.I/184 dated 21.05.2012.

For :

Consequent upon promotion to the rank of Inspector General in Maharashtra State Cadre, Smt. Archana Tyagi, IPS (MH : 1993), Deputy Inspector General, CISF, has been prematurely repatriated to her parent cadre and she relinquished the charge of the post of DIG, CISF, Airport West Zone HQrs., Mumbai in the forenoon of 10.05.2012.

Read :

Consequent upon promotion to the rank of Inspector General in Maharashtra State Cadre, Smt. Archana Tyagi, IPS (MH : 1993), Deputy Inspector General, CISF, has been prematurely repatriated to her parent cadre and she relinquished the charge of the post of DIG, CISF, Airport West Zone HQrs., Mumbai in the afternoon of 10.05.2012.

Sd/- ILLEGIBLE
Director General/CISF

The 22nd June 2012

No. E-16015(2)/32/2009/Pers.I/212—In exercise of power under Rule-5 of the CISF Rules-2001, the Competent Authority has conferred the local rank of Assistant Commandant (Exe) to the following Inspector (Exe) of CISF, with effect from the date noted against each:—

Sl. No.	Name	Office/Unit where assumed the charge	Date of Assumption of charge as Assistant Commandant (Local Rank)
	S/Shri		
1.	Girish Babu Singh	ASG, Lucknow	14.05.2012 (FN)
2.	Dipak Kumar Sarkar	ASG, Mumbai	10.01.2011 (FN)
3.	Jaswant Singh	NISA, Hyderabad	16.12.2011 (FN)
4.	Ved Prakash Yadav	BOM, Bolani	16.04.2012 (FN)
5.	P.K. Rout	NALCO, Angul	27.09.2011 (AN)
6.	P.K. Sethy	NALCO, Angul	12.09.2011 (FN)

Sd/- ILLEGIBLE
Director General/CISF

No. E-16015(2)/32/2009/Pers.I/213—In exercise of power under Rule-5 of the CISF Rules-2001, the Competent Authority has conferred the local rank of Dy. Commandant to the following Assistant Commandant of CISF, with effect from the date noted against each :—

Sl. No.	Name	Office/Unit where assumed the charge	Date of Assumption of charge as Dy. Commandant (Local Rank)
S/Shri			
1.	Maneesh Kumar Rai	Infosys Technologies Ltd., Bangalore	18.05.2012 (FN)
2.	Md. N.A. Khan	HPCL (VR & BP), Visakhapatnam	25.05.2012 (FN)
3.	N.R. Sharma	IPGCL/PPCL, New Delhi	01.05.2012 (FN)
4.	Ashish Kumar	ASG, Bhopal	26.06.2011 (FN)
5.	Sudhir Kumar	ASG, Port Blair	13.05.2011 (FN)
6.	Dilip Kumar	DM-I BN, Mundali	27.08.2010 (FN)
7.	Sukhran Pal	SDSC, Shar	15.11.2010 (FN)

Sd/- ILLEGIBLE
Director General/CISF

No. E-16015/(2)/32/2009/Pers.I/214—In exercise of power under Rule-5 of the CISF Rules-2001, the Competent Authority has conferred the local rank of Commandant to the following Deputy Commandants of CISF, with effect from the date noted against each :—

Sl. No.	Name of Officer	Office/Unit where assumed the charge	Date of Assumption of charge as Commandant (Local Rank)
S/Shri			
1.	RK Vaish	FBP, Farakka	01.03.2012 (FN)
2.	OPS Chauhan	SSTPS, Suratgarh	01.06.2012 (FN)
3.	DN Das	RTC, Deoli	29.05.2012 (FN)
4.	SKS Fartiyal	ECL, Seetalpur	04.05.2012 (AN)
5.	Jai Lal Kaushal	KKNPP, Kudankulam	26.11.2011 (AN)

Sd/- ILLEGIBLE
Director General/CISF

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL
(A&E), KERALA

Thiruvananthapuram, the 21st June 2012

No. O.E./E&C/EIVP/000044—The following officials of IA&AD retired from Service :—

Sl. No.	Name	Designation	Date of Retirement
1	2	3	4
1.	Smt. Girija Sreedhar C.S.	Senior Accounts Officer [Officiating as Dy. AG (Adhoc)] Main Office, Thiruvananthapuram.	31.05.2012 (AN) (Superannuation)

1	2	3	4
2.	Smt. Jaya T.K.	Senior Accounts Officer Branch Office, Thirssur	31.05.2012(AN) (Superannuation)
3.	Smt. Leela P.C.	Senior Accounts Officer Branch Office, Kottayam	31.05.2012(AN) (Superannuation)
4.	Smt. Mary Josafin	Accounts Officer Main Office, Thiruvananthapuram	31.05.2012(AN) (Superannuation)
5.	Sri Vijayakumaran Thampy K.	Asstt. Accounts Officer Main Office, Thiruvananthapuram	31.05.2012(AN) (Superannuation)
6.	Shri Krishan K. No. 3	Asstt. Accounts Officer Main Office, Thiruvananthapuram	31.05.2012(AN) (Superannuation)

S. VISHWANATHAN
Dy. Accountant General (Admn.)

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL
(A&E) ODISHA

Bhubaneswar-1, the 18th June 2012

No. Admn.-I-IAD-Gr. 'B'-544—Consequent on their acceptance of offer of promotion vide this official OOC No. 167 dated 31.05.2012, Pr. Accountant General, Odisha has been pleased to allow the following Assistant Accounts Officers to officiate as Accounts Officers (Gr. 'B'-Gazetted) in the Pay Band (PB-2) of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay Rs. 5,400/- with effect from date noted against each i.e. the date of taking over charge without prejudice to the claim of their seniors :—

Sl. No.	Name	Date of effect
S/Shri		
1.	Suresh Chandra Nanda	01.06.2012
2.	Paresh Kumar Sahoo	01.06.2012

The promotion is on temporary basis subject to the final decision of the Supreme Court/High Court/ CAT, if any, Other terms and conditions of OOC. 167 dated 31.05.2012 shall remain unchanged.

A. K. BID
Dy. Accountant General (Admn.)

No. Admn.-I-IAD-Gr. 'B'-546—Consequent on her acceptance of offer of adhoc promotion vide OOC No. 183 dated 07.06.2012, Pr. Accountant General, Odisha has been pleased to allow Ms. Suchitra Bhatta, Assistant Accounts Officer to officiate as Accounts Officer (Gr. 'B'-Gazetted) in the Pay Band (PB-2) of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay Rs. 5,400/- on adhoc basis with effect from 07.06.2012 (FN) i.e. the date of taking over charge without prejudice to the claim of her seniors.

The promotion is on temporary basis subject to the final decision of the Supreme Court/High Court/ CAT, if any, Other terms and conditions of 183 dated 07.06.2012 shall remain unchanged.

A. K. BID
Dy. Accountant General (Admn.)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL
(GENERAL & SOCIAL SECTOR AUDIT), ODISHA
Bhubaneswar, the 19th June 2012

No. Admn. (G&SSA)-3-1/Vol.X/894—In pursuance of OOC No. 252 dated 08.06.2012 communicated vide Memo No. Admn. (CA)-3-1/Vol.X/796 dated 08.06.2012, the following officers on their promotion have assumed charge

as Assistant Audit officer in Pay Band-2 (Rs. 9,300—34,800/-) with grade pay Rs. 4,800/- with effect from the dates noted against each :—

Sl. No.	Name	Date of Joining as Asst. Audit Officer
	S/Shri	
1.	Jagabandhu Das	08.06.2012 (FN)
2.	Sudhir Kumar Behera	08.06.2012 (FN)
3.	Ms. Smita Choudhury	08.06.2012 (FN)
4.	Biswajeet Chattar	15.06.2012 (FN)

S. S. DAS
Audit Officer/Admn.

MINISTRY OF MINES
(GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA)

Kolkata-700016, the 12th June 2012

No. 8358-SP/A-12025/1-Geol/Notification/07/19A—The President is pleased to appoint the following candidates to the post of Geologist [Formerly Geologist (Jr.)] (Group 'A', Gazetted) in Geological Survey of India in the minimum of the Pay Band-3 (Rs. 15,600—39,100/-) with the Grade Pay of Rs. 5,400/- in a temporary capacity with effect from the date and other details as mentioned against each until further orders :—

Sl. No.	Name of the officer & Category	Date of Appointment	Date of Birth	Place of Posting	Remarks
1.	Sh. Ansul Kumar Jaiswal, (OBC)	01.04.2010 (FN)	01.04.1985	Rajasthan State Unit, GSI, WR, Jaipur	*Provisional
2.	Smt. Seema Yadav, (OBC)	01.04.2010 (FN)	02.11.1982	Opn. MP-II, CR, GSI, Jabalpur	*Provisional
3.	Sh. Hrudananda Naik, (SC)	01.04.2010 (FN)	01.05.1976	Opn. TN&P, SR, GSI, Chennai	—
4.	Smt. Oleena C. S.	01.04.2010 (FN)	23.05.1981	Opn. K&G, SR, GSI, Bangalore	—
5.	Smt. Priya R, (OBC)	01.04.2010 (FN)	25.05.1981	AP State Unit, SR, GSI, Hyderabad	—
6.	Dr. Mohd. Yousuf Khanday	01.04.2010 (FN)	25.03.1980	Rajasthan State, Unit, GSI, WR, Jaipur	—
7.	Smt. Reshmi Madhavan,	01.04.2010 (FN)	04.12.1984	AP State Unit, SR, GSI, Hyderabad	—
8.	Sh. Sanjay Jungral, (SC)	01.04.2010 (FN)	10.04.1974	Opn. MP&CG, CR, GSI, Raipur	*Provisional
9.	Sh. P. Durga Prasad, (OBC)	01.04.2010 (FN)	04.11.1985	M&CS Divn., GSI, Pandeshwar, Mangalore	#Provisional
10.	Sh. S. Pradeep Kumar	01.04.2010 (FN)	24.12.1985	M-IIB, ER, GSI, Kolkata	#Provisional
11.	Sh. Arvind	01.04.2010 (FN)	26.11.1976	NER, GSI, Shillong	—

*The aforesaid appointment is provisional and subject to verification of Caste/OBC Certificate by the Competent Authority.

#The aforesaid appointment is provisional and subject to verification of original B. Sc. & M. Sc Degree by UPSC.

H. N. MISHRA
Sr. Administrative Officer
for Director General

No. 8359-SP/A-12025/1-Geol/Notification/07/19A—The President is pleased to appoint the following candidates to the post of Geologist [Formerly Geologist (Jr.)] (Group 'A', Gazetted) in Geological Survey of India in the minimum of the Pay Band-3 (Rs. 15,600—39,100/-) with the Grade Pay of Rs. 5,400/- in a temporary capacity with effect from the date and other details as mentioned against each until further orders :—

Sl. No.	Name of the officer & Category	Date of Appointment	Date of Birth	Place of Posting	Remarks
1.	Sh. Kailash Singh, (SC)	01.04.2010 (FN)	28.10.1980	NER, Sikkim	*Provisional
2.	Sh. Bhaise Mahesh Siddheshwar, (OBC)	01.04.2010 (FN)	01.08.1982	Rajasthan State Unit, WR, Jaipur	*Provisional
3.	Sh. N. Meribemo Yanthan, (ST)	01.04.2010 (FN)	04.12.1980	NER, Dimapur	—
4.	Smt. Deepmala Shamrao Barsagade, (SC)	01.04.2010 (FN)	06.05.1984	Rajasthan State Unit, WR, Jaipur	##Provisional
5.	Sh. Thrideep Kumar N, (OBC)	01.04.2010 (FN)	31.05.1980	NER, Sikkim	*Provisional
6.	Shri Deep Raj Thapa, (SC)	01.04.2010 (FN)	14.01.1978	Opn, PH&HP, NR, Chandigarh	*Provisional
7.	Sh. Balbir Singh, (SC)	01.04.2010 (FN)	10.03.1980	NER, Shillong	*Provisional
8.	Smt. Shaniba V, (OBC)	01.04.2010 (FN)	13.10.1981	Op : TN&P, SR, Chennai	—
9.	Sh. Giridhari Das, (OBC)	01.04.2010 (FN)	01.06.1975	Op : PH&HP, NR, Chandigarh	#Provisional
10.	Smt. Sujata Sougrakpam, (OBC)	07.04.2010 (FN)	03.03.1980	NER, Shilling	*Provisional
11.	Smt. Athulya Rajan S, (SC)	01.04.2010 (FN)	25.05.1982	Rajasthan State Unit, WR, Jaipur	—
12.	Sh. Arun K. Sreedhar, (OBC)	01.04.2010 (FN)	21.05.1979	OP : Bihar & Jharkhand, Ranchi	—

*The aforesaid appointment is provisional and subject to the verification of Caste/OBC Certificate by the Competent Authority.

#The aforesaid appointment is provisional and subject to the verification of M. Sc/Ph. D Degree Certificate by UPSC.

H. N. MISHRA
Sr. Administrative Officer
for Director General

The 20th June 2012

No. 8609-SP/A-12025/1-Geol/Notification/07/19A—The President is pleased to appoint the following candidates to the post of Geologist [Formerly Geologist (Jr.)] (Group 'A', Gazetted) in Geological Survey of India in the minimum of the Pay Band-3 (Rs. 15,600—39,100/-) with the Grade Pay of Rs. 5,400/- in a temporary capacity with effect from the date and other details as mentioned against each until further orders :—

Sl. No.	Name	Date of Appointment	Date of Birth	Place of Posting	Remarks
1.	Sh. Devender Singh	01.04.2010 (FN)	03.06.1978	Glaciology Divn., NRO, Lucknow	—
2.	Smt. Maibam Rogibala (OBC)	01.04.2010 (FN)	28.02.1982	Opn : UP & UK, NRO, Lucknow	—
3.	Smt. Rimpal Kar	01.04.2010 (FN)	11.01.1982	AP State Unit, SRO, Hyderabad	—
4.	Sh. Tarsam Kumar	01.04.2010 (FN)	26.04.1977	Opn : PH & HP, NRO, Chandigarh	—
5.	Sh. Saju Varghese	01.04.2010 (FN)	28.09.1983	M&CSD Opn : East Coast-I, ERO, Kolkata	—

H. N. MISHRA
Administrative Officer Gr.-I
for Director General

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

Mumbai-400085, the 18th June 2012

No. PD/6(1)/2012-R-III/2012/5307—Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints Smt. Bharati Satish Suvarna, Assistant, DAE, to officiate as Assistant Personnel Officer in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay Rs. 4,800/- in BARC, Tarapur with effect from the forenoon of 14.05.2012 on regular basis until further orders.

SHAILAJA PRAKASAM
Dy. Establishment Officer

No. PD/6(1)/2012-R-III/2012/5309—Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints Smt. B. Lalitha, Assistant, NFC, Hyderabad to officiate as Assistant Personnel Officer in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay Rs. 4,800/- in this Research Centre with effect from the forenoon of 14.05.2012 on regular basis until further orders.

SHAILAJA PRAKASAM
Dy. Establishment Officer

Mumbai-400085, the 18th June 2012

No. 93/Noti./Est.IA/5296—The Officers whose names are mentioned in column 2 of the table below, relinquished charge of the post held by them, as indicated in column 3 with effect from the dates mentioned in column 4 consequent on the event mentioned in column 5 thereof :—

Sl. No.	Name	Relinquished the charge of the post of	Date of relinquishment	Event
1	2	3	4	5
1.	Sh. Mayank Singh	SO/C	14.05.2012 (AN)	Resignation
2.	Dr. (Smt.) Usha Narayanan	SO/E	16.05.2012 (FN)	Voluntary Retirement

1	2	3	4	5
3.	Kumari Sowmya K.	SO/C	31.05.2012 (AN)	Resignation
4.	Smt. S. S. Lokhande	SO/E	31.05.2012 (AN)	Superannuation
5.	Sh. George Thomas	SO/F	31.05.2012 (AN)	Superannuation
6.	Sh. Somnath Muzumdar	SO/G	31.05.2012 (AN)	Superannuation
7.	Sh. V. M. Joshi	OS & Head, EISD	31.05.2012 (AN)	Superannuation
8.	Dr. V. K. Mago	OS	31.05.2012 (AN)	Superannuation
9.	Sh. R. N. Khanijo	SO/H	31.05.2012 (AN)	Superannuation

S. G. MARKANDEYA
Controller

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

(VARIABLE ENERGY CYCLOTRON CENTRE)

Kolkata-700064, the 20th June 2012

No. VECC/Prom (July)/2011/4085—The President is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officer of Variable Energy Cyclotron Centre, Department of Atomic Energy, Kolkata to the Grade of Scientific Officer/E in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- and Grade Pay of Rs. 7,600/- in the same Centre in an officiating capacity with effect from July 1, 2011 (FN) until further orders :—

Sl. No.	Name	Present Post	P.B + G.P.
1.	Sh. Gaurav Saxena	Scientific Officer (D)	Rs. 15,600—39,100/- + Rs. 6,600/-
2.	Sh. Kaushik Datta	Scientific Officer (D)	Rs. 15,600—39,100/- + Rs. 6,600/-
3.	Sh. J. K. Nayak	Scientific Officer (D)	Rs. 15,600—39,100/- + Rs. 6,600/-
4.	Dr. (Smt.) M. Bhattacharya	Scientific Officer (D)	Rs. 15,600—39,100/- + Rs. 6,600/-
5.	Sh. Rathin Saha	Scientific Officer (D)	Rs. 15,600—39,100/- + Rs. 6,600/-
6.	Sh. Supriyo Mukhopadhyay	Scientific Officer (D)	Rs. 15,600—39,100/- + Rs. 6,600/-
7.	Sh. Umashankar Panda	Scientific Officer (D)	Rs. 15,600—39,100/- + Rs. 6,600/-
8.	Md. Zamal Abdul Naser	Scientific Officer (D)	Rs. 15,600—39,100/- + Rs. 6,600/-
9.	Sh. Tapan Kumar Rana	Scientific Officer (D)	Rs. 15,600—39,100/- + Rs. 6,600/-
10.	Sh. Atanu Dutta	Scientific Officer (D)	Rs. 15,600—39,100/- + Rs. 6,600/-

N. V. S. V. PRASAD
Administrative Officer-III

No. VECC/Prom (July)/2012/4086—The President is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officers of Variable Energy Cyclotron Centre, Department of Atomic Energy, Kolkata to the grade of Scientific Officer/D in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- and Grade Pay of Rs. 6,600/- in the same Centre in an officiating capacity with effect from July 4, 2011 (FN) until further orders :—

Name	Present Post	P.B. + G.P.
Sh. Ranadev Dutta	Scientific Officer(C)	Rs.15,600—39,100/- + Rs. 5,400/-

N. V. S. V. PRASAD
Administrative Officer-III

No. VECC/Prom (July)/2012/4087—The President is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officers of Variable Energy Cyclotron Centre, Department of Atomic Energy, Kolkata to the grade of Scientific Officer/D in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- and Grade Pay of Rs. 6,600/- in the same Centre in an officiating capacity with effect from July 1, 2011 (FN) until further orders :—

Sl. No.	Name	Present Post	P.B. + G.P.
1.	Sh. Abhishek Singh	Scientific Officer(C)	Rs. 15,600—39,100/- + Rs. 5,400/-
2.	Sh. Swagata Mallik	Scientific Officer(C)	Rs. 15,600—39,100/- + Rs. 5,400/-
3.	Sh. Dipta Pratim Dutta	Scientific Officer(C)	Rs. 15,600—39,100/- + Rs. 5,400/-
4.	Sh. Pratap Roy	Scientific Officer(C)	Rs. 15,600—39,100/- + Rs. 5,400/-
5.	Ms. Ranjini Menon	Scientific Officer(C)	Rs. 15,600—39,100/- + Rs. 5,400/-
6.	Sh. Vipendra Kumar Khare	Scientific Officer(C)	Rs. 15,600—39,100/- + Rs. 5,400/-

N. V. S. V. PRASAD
Administrative Officer-III

RAJA RAMANNA CENTRE FOR ADVANCE TECHNOLOGY

Indore, the 18th June 2012

No. RRCAT/Admn/Rect/761—The President is pleased to appoint Shri Kiran Baraik as Technical Officer/C with effect from 14.03.2012 (forenoon) in the Pay Band-3 Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay Rs. 5,400/- in an officiating capacity in Raja Ramanna Centre for Advanced Technology, Indore until further orders.

B. K. JENA
Chief Administrative Officer

No. RRCAT/Admn/Rect/762—The President is pleased to appoint Shri Dharendra Kumar Verma as Scientific Officer/C with effect from 20.04.2012 (forenoon) in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 5,400/- in an officiating capacity in the Raja Ramanna Centre for Advanced Technology, Indore until further orders.

B. K. JENA
Chief Administrative Officer

HEAVY WATER BOARD

Mumbai-400094, the 18th June 2012

No. HWB/R/1(16)-M/2012/315—Chief Executive, Heavy Water Board appoints Shri B. R. Somasundar, Assistant Accountant (PB-2 Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,600/-), BARC, Mumbai to officiate as Assistant Accounts Officer in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay Rs. 4,800/- in Heavy Water Plant (Manuguru) from the forenoon of 12th March, 2012 until further orders.

K. S. PILLAI
Administrative Officer-III

NUCLEAR FUEL COMPLEX

Hyderabad-500062, the 16th June 2012

No. NFC/ADM/PEN/EC-0999/6328—On attaining the age of superannuation, Shri K. Gopalakrishna, Scientific Officer 'D', (Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- & GP - 6,600/-) of Nuclear Fuel Complex, Department of Atomic Energy, Hyderabad, has relinquished the charge of the post with effect from 31.05.2012 (AN).

GIRIJA RAMPRASAD
Asstt. Personnel Officer

No. NFC/ADM/PEN/EC-0951/6328—On attaining the age of superannuation, Shri S. Raju, Scientific Officer 'E', (Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- & GP - 7,600/-) of Nuclear Fuel Complex, Department of Atomic Energy, Hyderabad, has relinquished the charge of the post with effect from 31.05.2012 (AN).

GIRIJA RAMPRASAD
Asstt. Personnel Officer

No. NFC/ADM/PEN/EC-2697/6328—On attaining the age of superannuation, Shri G. Chandra Mohan, Scientific Officer 'E', (Pay Band of Rs. 15,600—39,100/- & GP - 7,600/-) of Nuclear Fuel Complex, Department of Atomic Energy, Hyderabad, has relinquished the charge of the post with effect from 31.05.2012 (AN).

GIRIJA RAMPRASAD
Asstt. Personnel Officer

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies

Chandigarh, the 18th June 2012

No. RoC/560(5)/2011—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies have this day been struck off from the Register and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1	2	3
1.	011744	M/s. Har Sarup Leasing Limited
2.	011753	M/s. Osahan Exports Private Limited
3.	011760	M/s. Zircon Tool Room Private Limited
4.	011762	M/s. Hi Lift Equipments Private Limited
5.	011769	M/s. Shatabdi Steel Tubes Private Limited
6.	011777	M/s. Bajwa Leasing Private Limited
7.	011784	M/s. Abu Ahmed Management Services Private Limited
8.	011788	M/s. Vibgyor Agro Forestry Links Private Limited
9.	011793	M/s. A.S.K. Rubber Factory Private Limited
10.	011798	M/s. Kith Exports Private Limited
11.	011803	M/s. Diamond Spares India Private Limited
12.	011813	M/s. Riat Bearings Private Limited
13.	011814	M/s. Galley Investments Private Limited
14.	011817	M/s. GHK Hire Purchase Private Limited
15.	011818	M/s. Puri Finance and Investment Private Limited
16.	011825	M/s. Mystique Leather India Private Limited
17.	011826	M/s. Sewa Hire Purchase Private Limited
18.	011823	M/s. Ishan Hire Purchase and Finance Private Limited
19.	011831	M/s. G.B. Paper Mill Private Limited
20.	011837	M/s. Pinkto Enterprises Private Limited
21.	011839	M/s. Kabir Hire Purchase Private Limited
22.	011850	M/s. K.L. Raj Kumar Jain Hosiery Private Limited
23.	011863	M/s. Red Star Hotels Private Limited
24.	011870	M/s. Mahajan Tent House Private Limited

1	2	3
25.	011874	M/s. Murad Zinc Private Limited
26.	011883	M/s. S. N. Pearls Agrotech Private Limited
27.	011884	M/s. Silver Kite Investment Company Private Limited
28.	011904	M/s. Sakshi Deposits Limited
29.	011907	M/s. I.Q.C. India Private Limited
30.	011897	M/s. Sahyog Credits Limited
31.	011899	M/s. Gulati Apparels Private Limited
32.	011910	M/s. Adesh Diagnostic Centre Private Limited
33.	011914	M/s. Sahib Chemicals Private Limited
34.	011915	M/s. Sijad Electrods (India) Private Limited
35.	011916	M/s. G.A. Finance and Investment Private Limited
36.	011920	M/s. Randhir Metal Extractions Private Limited
37.	011936	M/s. Gem Field Farms Limited
38.	011945	M/s. Varinder Robotics Private Limited
39.	011938	M/s. Ess Dee Credits Private Limited
40.	011940	M/s. Chopsons Finance Private Limited
41.	011953	M/s. Teg Alloys Private Limited
42.	011991	M/s. K.B. Credits and Hire Purchase Private Limited
43.	011994	M/s. PJR Deposits and Advances Private Limited
44.	012005	M/s. Team Up Impex Private Limited
45.	012007	M/s. Sansons Switch Gears Private Limited
46.	012009	M/s. H. K. Hire Purchase Private Limited
47.	012012	M/s. Nav Durga Alloys Private Limited
48.	012011	M/s. Chandi Gaschem Private Limited
49.	012015	M/s. Patiala Leasing Private Limited
50.	012017	M/s. Grewal Nordia Springs Limited
51.	012025	M/s. Ruby Mushrooms and Canning Private Limited
52.	012032	M/s. Kay Footwears Private Limited
53.	012031	M/s. Tectonics Overseas Private Limited
54.	012034	M/s. Mega Fiscal Services Private Limited
55.	012039	M/s. Kimmy Hire Purchase Private Limited
56.	012040	M/s. Kith Finance Private Limited

1	2	3	1	2	3
57.	012046	M/s. Narayan Cotton Traders Private Limited	84.	012230	M/s. Karan Techno Finance and Investments Private Limited
58.	012045	M/s. Shankar Lal Sharda Trading Company Private Limited	85.	012247	M/s. Sunder Solvex Private Limited
59.	012069	M/s. J.B.S. Investment Enterprises Private Limited	86.	012248	M/s. Setia Foods Limited
60.	012078	M/s. Sierra Builders Private Limited	87.	012250	M/s. Multitech Fabriks Private Limited
61.	012089	M/s. Diwan Capital Investments Private Limited	88.	012251	M/s. Sabhi Finance Company Private Limited
62.	012090	M/s. Surjit Pharmaceuticals Private Limited	89.	012245	M/s. Diwan Capital Growth Limited
63.	012116	M/s. Sunrise Deposit and Investment Private Limited	90.	012271	M/s. Grewal Auto Advances Private Limited
64.	012117	M/s. Tycoons Investment and Share Consultants Private Limited	91.	012275	M/s. Creatik Marketing and Consultants Private Limited
65.	012109	M/s. Optimist Finance and Hire Purchase Limited	92.	012277	M/s. Mahavir Strips Private Limited
66.	012115	M/s. R.D. Hire Purchase and Leasing Company Limited	93.	012270	M/s. Swagat Marbles Private Limited
67.	012123	M/s. Century Overseas Private Limited	94.	012291	M/s. Samana Agros Private Limited
68.	012130	M/s. Cheema Hire Purchase and Deposits Private Limited	95.	012290	M/s. Indo-European Agro Limited
69.	012135	M/s. Vishal Chem-Tech Private Limited	96.	012301	M/s. Simreen Consultants Private Limited
70.	012144	M/s. Shiva Advances and Deposits Limited	97.	012309	M/s. Jaijeet Finance and Investments Private Limited
71.	012148	M/s. Ram Sarup Solvex Private Limited	98.	012307	M/s. Sealand Hire Purchase Private Limited
72.	012152	M/s. Aman Hire Purchase Private Limited	99.	012319	M/s. Pasla Agricultural and General Finance Company Limited
73.	012153	M/s. Ambika Business Communications Private Limited	100.	012316	M/s. Pee Bee Hire Purchase Private Limited
74.	012156	M/s. Macks Exports Limited	101.	012315	M/s. Sita Hire Purchase Private Limited
75.	012172	M/s. Sabjot Financers and Investments Private Limited	102.	012324	M/s. Shiv Shakti Aluminium Private Limited
76.	012179	M/s. Benz Finance and Investments Private Limited	103.	012322	M/s. Kahan Chemicals Private Limited
77.	012182	M/s. Ashirwad Hire Purchase Private Limited	104.	012335	M/s. Speedage Tyre Distributors Private Limited
78.	012194	M/s. Midas Fiscal Services Limited	105.	012342	M/s. Badial Finance Company Private Limited
79.	012197	M/s. K.C. Sons Finance Private Limited	106.	012343	M/s. Ashish Leasing and Finance Limited
80.	012210	M/s. Earthen Energies Limited	107.	012344	M/s. Ishan Credits Limited
81.	012213	M/s. Swans Auto Wings Private Limited	108.	012345	M/s. Sanative Agencies Private Limited
82.	012219	M/s. Soni Deposits and Investment Private Limited	109.	012348	M/s. Sagar Satia Finance Private Limited
83.	012215	M/s. Royal Advertising Private Limited	110.	012353	M/s. Aay Pee Electronics Private Limited
			111.	012367	M/s. Champion Spinners Private Limited
			112.	012375	M/s. A. Kumar Investments and Services Private Limited
			113.	012391	M/s. Jai Shiv Exports and Investments Private Limited

1	2	3
114.	012393	M/s. Nitin Sales and Estates Private Limited
115.	012386	M/s. Dolphin Conductors Private Limited
116.	012403	M/s. Prospective Share Holdings Private Limited
117.	012411	M/s. Kapurthala Finance Private Limited
118.	012415	M/s. D.N. Fertilizers Private Limited
119.	012420	M/s. Sarkay Investment and Finance Private Limited
120.	012422	M/s. Galaxy Agro Limited
121.	012426	M/s. Mohit Deposits and Advances Private Limited
122.	012432	M/s. Gurtej Hire Purchase Private Limited
123.	012435	M/s. Varinder Roller Flour Mills Private Limited
124.	012438	M/s. Sadana Marketing Private Limited
125.	012434	M/s. Norwest Forests and Housing Development Limited
126.	012440	M/s. Gemini Expo and Marketing Private Limited
127.	012441	M/s. Jaikaran Advertising Private Limited
128.	012446	M/s. Colombo Photo Company Private Limited
129.	012463	M/s. Chandigarh Secretarial Services Private Limited
130.	012464	M/s. Vee Gee Financial Consultants Private Limited
131.	012467	M/s. Inder Investments Private Limited
132.	012481	M/s. Dashmesh Finlease Services Private Limited
133.	012510	M/s. Chadha Hire Purchase Private Limited
134.	012511	M/s. Rama Ginners Private Limited
135.	012512	M/s. Aulakh Finances and Investments Private Limited
136.	012520	M/s. Westcoast Impex Private Limited
137.	012551	M/s. Mandeep Deposits and Advances Private Limited
138.	012545	M/s. Kandi Leasing Limited
139.	012548	M/s. Shashvat Financial Services Private Limited
140.	012555	M/s. Mittal Solvex and Alloys Private Limited

1	2	3
141.	012556	M/s. Crux Hire Purchase and Leasing Company Limited
142.	012572	M/s. Ashish Plantations Limited
143.	012583	M/s. Janta Cotton and Foods Private Limited
144.	012589	M/s. S. L. Travels and Liaison Consultants Private Limited
145.	012602	M/s. A Class Finance Private Limited
146.	012608	M/s. Harsimran Leasing and Finance Private Limited
147.	012616	M/s. Medivision Laboratories Private Limited
148.	012618	M/s. M. K. Deposits and Advances Private Limited
149.	012627	M/s. Golden Earth Limited
150.	012630	M/s. Malwa Financial Consultant Private Limited
151.	012639	M/s. Crest Certification Systems Private Limited
152.	012641	M/s. Dashmesh Financial Services Private Limited
153.	012656	M/s. Delta Conductors and Non Ferrous Alloys Private Limited
154.	012685	M/s. Brothers Auto Hire Purchase Private Limited
155.	012696	M/s. Falcon T and M Enterprises Private Limited
156.	012707	M/s. BIC Investment Private Limited (Transferred to Delhi)
157.	012713	M/s. Nangal Chemicals Private Limited
158.	012714	M/s. Pneumato Computers Private Limited
159.	012720	M/s. Orbit Forests Limited
160.	012725	M/s. Composite Construction MS Private Limited
161.	012734	M/s. Ranbaxy Enterprises Private Limited
162.	012744	M/s. Diamond Deposits and Advances Private Limited
163.	012754	M/s. Sidhu Hire Purchase Private Limited
164.	012755	M/s. Baweja Financiers Private Limited
165.	012762	M/s. Harjeo Finance Private Limited
166.	012765	M/s. Dhanju and Sandhu Hire Purchase Private Limited
167.	012772	M/s. Bohgan Finance Company Private Limited

1	2	3	1	2	3
168.	012773	M/s. Evershine Concast Private Limited	196.	013040	M/s. T. S. Advances and Deposits Private Limited
169.	012778	M/s. Aagaaz Industries Limited	197.	013041	M/s. Bhaghiya Shree Leasing and Deposits Private Limited
170.	012797	M/s. Unique General Investment Private Limited	198.	013055	M/s. Monga Blue Flames Limited
171.	012803	M/s. Neighbour Financiers Private Limited	199.	013066	M/s. Paramhans Finance Private Limited
172.	012808	M/s. Rab Financial and Management Consultants Private Limited	200.	013079	M/s. Jimmy Finance Limited
173.	012812	M/s. Bedi Tyre Centre Private Limited	201.	013094	M/s. Soldiers Hire Purchase Private Limited
174.	012815	M/s. Feco Paper and Mech Private Limited	202.	013088	M/s. Overline Constructions Private Limited
175.	012819	M/s. TBK Hire Purchase Private Limited	203.	013090	M/s. Jai Durge Hire Purchase and Leasing Company Private Limited
176.	012825	M/s. Sukhmani Papers Limited	204.	013113	M/s. Pacific Laboratories Private Limited
177.	012827	M/s. Phagwara Stock Traders Private Limited	205.	013117	M/s. Saras Credits Private Limited
178.	012836	M/s. PPR Deposits and Advances Private Limited	206.	013123	M/s. Quest Computers Private Limited
179.	012848	M/s. Atwal Synthetics Limited	207.	013125	M/s. Sahibzaade Hotels Private Limited
180.	012851	M/s. Rana Hire Purchase Private Limited	208.	013128	M/s. Early Leasing Company Private Limited
181.	012852	M/s. Picric Exports Private Limited	209.	013129	M/s. Angurala Estates Private Limited
182.	012870	M/s. Mohali Stock and Share Services Private Limited	210.	013130	M/s. Tangri Fabrics Private Limited
183.	012874	M/s. Punjab Insecticides Limited	211.	013146	M/s. Jot Hire Purchase and Finance Private Limited
184.	012879	M/s. Omax Rubber Private Limited	212.	013155	M/s. Lucky Enterprises Private Limited
185.	012890	M/s. Manpreet Hire Purchase Private Limited	213.	013174	M/s. Alka Overseas Private Limited
186.	012903	M/s. Emm Sons Finance and Exports Private Limited	214.	013172	M/s. Rajdeep Agro-Tech Private Limited
187.	012931	M/s. Barnala Share Merchants Private Limited	215.	013185	M/s. Prigs Express Private Limited
188.	012932	M/s. Maini Leasing and Financial Services Limited	216.	013190	M/s. Ambala Leasing Private Limited
189.	012938	M/s. Rajpura Finance and Leasing Private Limited	217.	013198	M/s. Third Eye Vision Private Limited
190.	012958	M/s. Philcon Electricals Private Limited	218.	013209	M/s. Jaskaran Gakhal Hire Purchase Private Limited
191.	012971	M/s. Citizens Stock Investors Private Limited	219.	013210	M/s. Harsimran Hire Purchase Private Limited
192.	012980	M/s. Gamma Diagnostic and Research Centre Private Limited	220.	013216	M/s. Guru Amar Dass Textiles Private Limited
193.	013002	M/s. Subhash Castings Private Limited	221.	013220	M/s. Chawla Flour Mills Private Limited
194.	013011	M/s. Sarpriya Forests India Limited	222.	013223	M/s. Samra Embro Tech Private Limited
195.	013032	M/s. Kaushal Dyeing and Finishing Mills Private Limited	223.	013225	M/s. Prince Laminated Belts Private Limited
			224.	013227	M/s. Sahil Metal and Scrap Contractors Private Limited
			225.	013228	M/s. J. T. Steel Tubes Private Limited
			226.	013231	M/s. Ram Hari Financier Private Limited

1	2	3
227.	013288	M/s. Modella Knitwears Limited
228.	013242	M/s. Alawalpur Finance Private Limited
229.	013244	M/s. Quick Deposits and Advances Private Limited
230.	013241	M/s. Vishwas Cement Private Limited
231.	013264	M/s. Hargobind Agri Systems Private Limited
232.	013267	M/s. Regency Credits Private Limited
233.	013285	M/s. Rosewell Construction Company Private Limited
234.	013292	M/s. Tinda Finance Private Limited
235.	013296	M/s. Prem Jindal Financiers Private Limited
236.	013302	M/s. Goldenstar Hotel Private Limited
237.	013303	M/s. N. N. Puri and Company Financial Services Private Limited
238.	013300	M/s. Bookman and Company Private Limited
239.	013304	M/s. Om Lamps Private Limited
240.	013320	M/s. Hamdard Hire Purchase Private Limited
241.	013324	M/s. Noble Deposits and Advances Private Limited
242.	013343	M/s. Ujagar Advances Limited
243.	013353	M/s. Mahilpur Advances Private Limited
244.	013354	M/s. Jasdeep Hire Purchase Private Limited
245.	013371	M/s. Jay Emm Tracks Limited
246.	013376	M/s. Lachman Auto Finance Private Limited
247.	013382	M/s. Appenzel Remedies and Enterprises Private Limited
248.	013384	M/s. Darpan Techno Plast Private Limited
249.	013386	M/s. Proteus Lease Finance Private Limited
250.	013389	M/s. Sadashiv Comptronics Private Limited
251.	013387	M/s. Pooja Deposits and Traders Private Limited
252.	013392	M/s. Gill Sharma Finance Company Private Limited
253.	013395	M/s. Pathankot Deposits and Leasing Private Limited

1	2	3
254.	013398	M/s. Golden Auto Exports Private Limited
255.	013397	M/s. Broadway Cycles Private Limited
256.	013401	M/s. Paul Leasing Private Limited
257.	013420	M/s. P. K. G. Financiers and Leasing Private Limited
258.	013438	M/s. Jullundur Freight Carriers Private Limited
259.	013437	M/s. Amar Maternity Hospital and Research Centre Private Limited
260.	013467	M/s. Amritsar Autos Private Limited
261.	013483	M/s. Himalaya Deposits and Advances Private Limited
262.	013497	M/s. Hoshiarpur Azad Bus Service Private Limited
263.	013498	M/s. Sandhu Deposits and Investment Private Limited
264.	013499	M/s. A. S. Finance and Leasing Private Limited
265.	013500	M/s. GMP Mechanical Engineers Private Limited
266.	013509	M/s. Chand Fairdeal Financiers Private Limited
267.	013525	M/s. Pacific Paper Products Private Limited
268.	013532	M/s. Jindal Financial and Investment Consultancy Services Private Limited
269.	013550	M/s. Kasturi Chemicals Private Limited
270.	013573	M/s. Prime Capital Investments India Private Limited
271.	013577	M/s. Sai Sports and Fashionwear Private Limited
272.	013586	M/s. Perhar Sales Private Limited
273.	013585	M/s. Sealand Deposits and Advances Private Limited
274.	013587	M/s. Amco Wheels Private Limited
275.	013592	M/s. Sahib Bottling and Petroleum Gases Private Limited
276.	013593	M/s. Sardar Woollen Mills Private Limited
277.	013597	M/s. Shanti Milk Foods Private Limited
278.	013600	M/s. Manglam Ferro Products Private Limited

1	2	3	1	2	3
279.	013615	M/s. N. M. Woollen Mills Private Limited	312.	013869	M/s. Surya Milk Specialities Private Limited
280.	013621	M/s. Raavi Finance and Leasing Company Private Limited	313.	013867	M/s. Sapatshati Agro Mills Private Limited
281.	013624	M/s. P. K. Ceilings Private Limited	314.	013872	M/s. Jasjit Hire Purchase Private Limited
282.	013630	M/s. Leo Hire Purchase Private Limited	315.	013876	M/s. Amardeep Oils Private Limited
283.	013628	M/s. Green Diamond Forests India Limited	316.	013878	M/s. Sapuri Exports Private Limited
284.	013633	M/s. Ahuja Rubber Private Limited	317.	013881	M/s. Mohan Kairpal Exporters Private Limited
285.	013637	M/s. East West Couriers Private Limited	318.	013882	M/s. R. K. Cropicals Private Limited
286.	013641	M/s. Friends Polypack Private Limited	319.	013883	M/s. Baba Farid Investment Private Limited
287.	013644	M/s. G. N. Steels Private Limited	320.	013887	M/s. Chelsea Finance and Investments Private Limited
288.	013648	M/s. Bir Hire Purchase Private Limited	321.	013909	M/s. Shalimar Pictures Private Limited
289.	013646	M/s. Jay Bee Industries Private Limited	322.	013918	M/s. Kanwar Kameshwar Financies Private Limited
290.	013653	M/s. Skyhigh Pharmaceuticals Private Limited	323.	013926	M/s. P. K. Hire Purchase Private Limited
291.	013664	M/s. Honeydew Deposits and Advances Private Limited	324.	013942	M/s. Dashmesh Water Meters Private Limited
292.	013667	M/s. Jai Shree Petroleum Products Private Limited	325.	013943	M/s. J. S. Agro Private Limited
293.	013671	M/s. Punjab Credits Private Limited	326.	013961	M/s. Punjab Pumps Private Limited
294.	013685	M/s. M. Parmar Hire Purchase Private Limited	327.	013970	M/s. Jaswinder Finance Private Limited
295.	013695	M/s. Ajmer Finance Private Limited	328.	013974	M/s. Baba Budha Sahib Finance Private Limited
296.	013706	M/s. Punj Plast Limited	329.	013987	M/s. Swami Property Consultants Private Limited
297.	013711	M/s. Hemkunt Homes and Leasing Private Limited	330.	013999	M/s. Gupta Kerosene Oil Private Limited
298.	013725	M/s. Step-in Finance and Leasing Private Limited	331.	014006	M/s. Sheetal Fabricators Private Limited
299.	013732	M/s. B. C. Hire Purchase Private Limited	332.	014009	M/s. Aggarwal Advances and Deposits Private Limited
300.	013758	M/s. L. C. Oswal Woollens Private Limited	333.	014007	M/s. Guggo Holdings Private Limited
301.	013756	M/s. Triune Agro Foods Limited	334.	014013	M/s. Goldstar Deposits and Advances Private Limited
302.	013777	M/s. Milan Deposits and Advances Private Limited	335.	014016	M/s. Pivotal Financial Services Private Limited
303.	013801	M/s. Bisvambro Wire Knitting Private Limited	336.	014033	M/s. Sudershan Hire Purchase Private Limited
304.	013796	M/s. Auriga Consultants India Private Limited	337.	014035	M/s. M.F. Tyres Limited
305.	013818	M/s. Northern Agricultural Development Limited	338.	014028	M/s. Colonels Marketing Private Limited
306.	013820	M/s. Shiromani Papers Private Limited	339.	014029	M/s. Northern Koljob Private Limited
307.	013821	M/s. Okasa Petroleums Private Limited	340.	014040	M/s. Bhangoo Finance and Investment Private Limited
308.	013822	M/s. Surjit Singh and Company Builders Financiers Distributors Private Limited	341.	014050	M/s. Pancham Planners Limited
309.	013831	M/s. Kooner Finance Private Limited	342.	014049	M/s. Silicon Informatics Private Limited
310.	013838	M/s. Jayech Metallics Private Limited	343.	014054	M/s. Sharda Hire Purchase Private Limited
311.	013835	M/s. SRM Builders Private Limited			

1	2	3
344.	014055	M/s. S.B.R. Ceramics Private Limited
345.	014059	M/s. Kamal Finance Private Limited
346.	014057	M/s. Shelly Estates Private Limited
347.	014068	M/s. Kisraj Overseas Private Limited
348.	014072	M/s. H.K. Highway Services Private Limited
349.	014075	M/s. Valentine Exports and Marketing Private Limited
350.	014094	M/s. Falcon Autos Private Limited
351.	014100	M/s. Golden Waves Advertising Limited
352.	014106	M/s. Walia Deposits Private Limited
353.	014109	M/s. Bhanot Solvex Private Limited
354.	014132	M/s. Sigma Financiers Private Limited
355.	014152	M/s. KOG Inns Private Limited
356.	014157	M/s. Aapta Marketing Syndicate Private Limited
357.	014176	M/s. Amristar Flowers and Herbs Private Limited
358.	014179	M/s. Monporate Financial Services Private Limited
359.	014194	M/s. Karamyogi Textile Mills Private Limited
360.	014195	M/s. Zenis Auto Private Limited
361.	014203	M/s. MSL Investments Limited
362.	014205	M/s. Solidaire Exports Limited
363.	014219	M/s. D.K. Financial Services Private Limited
364.	014220	M/s. Nijjar Hire Purchase Private Limited
365.	014221	M/s. Omega Auto Cables Private Limited
366.	014235	M/s. Amritsar Bricks Private Limited
367.	014242	M/s. S.K. Deposits and Advances Private Limited
368.	014248	M/s. Rising Sun Finance Private Limited
369.	014260	M/s. Bhagwati Paints Private Limited
370.	014276	M/s. Neel Tubes Private Limited
371.	014281	M/s. Commitment Imports and Exports Private Limited
372.	014277	M/s. Ramsun Electronics Private Limited
373.	014282	M/s. Madhur Kunj Finance Private Limited
374.	014286	M/s. Sarai Autoelectric Private Limited
375.	014297	M/s. Harbans Leasing and Investments Private Limited
376.	014289	M/s. Golden Lease Finance Limited
377.	014302	M/s. B.R.K. Agro Private Limited

1	2	3
378.	014300	M/s. Profab System Engineering Private Limited
379.	014316	M/s. S.S. Chohan Resorts and Financiers Private Limited
380.	014320	M/s. Multani Investments Private Limited
381.	014326	M/s. Sukhana Infomech Private Limited
382.	014331	M/s. Marvi Financiers Private Limited
383.	014389	M/s. Navax Pharmaceuticals Private Limited
384.	014397	M/s. Hoshiarpur Financial Services Limited
385.	014398	M/s. Wadala Finance Private Limited
386.	014402	M/s. Shiv Shankar Finance Private Limited
387.	014406	M/s. Advance Media House Private Limited
388.	014427	M/s. Safina Resorts Private Limited
389.	014429	M/s. Penguin Computers Private Limited
390.	014436	M/s. Jindal Micro Circuits Private Limited
391.	014442	M/s. Peer Finlease Private Limited
392.	014460	M/s. Shivalikwala Construction Company Limited
393.	014483	M/s. Tinna Finance Private Limited
394.	014484	M/s. New Light Deposits and Advances Private Limited
395.	014489	M/s. Moninder Hire Purchase Private Limited
396.	014482	M/s. Excello Marketing and Associates Private Limited
397.	014492	M/s. Paradise Forgings Private Limited
398.	014506	M/s. Siddhartha Fuels Private Limited
399.	014502	M/s. Regency Steel Tubes Private Limited
400.	014510	M/s. Dhiman Coach Builders Private Limited
401.	014516	M/s. Bilaspur Estates Private Limited
402.	014529	M/s. Sohal Shekhon Credits Private Limited
403.	014530	M/s. Nindi Finance Private Limited
404.	014533	M/s. Sukhmani Exports Private Limited
405.	014534	M/s. Shree Maya Investment and Finance Private Limited
406.	014544	M/s. Tejindera Deposits and Advances Private Limited
407.	014549	M/s. Grib Nawaz Hire Purchase Private Limited
408.	014556	M/s. Supriya Rubbers Private Limited

1	2	3	1	2	3
409.	014557	M/s. Argus Finance Private Limited	440.	014707	M/s. Tarini Financiers Private Limited
410.	014561	M/s. Raonta Brar Investments Private Limited	441.	014733	M/s. Multicare Financial Services Private Limited
411.	014562	M/s. Mishra Pharmaceuticals Private Limited	442.	014737	M/s. Alfa Cones Private Limited
412.	022249	M/s. Metropolis Overseas Private Limited	443.	014739	M/s. Kamsan Exports Private Limited
413.	014586	M/s. Malik and Jindal Capital Services Private Limited	444.	014741	M/s. Sarup Hire Purchase Private Limited
414.	014587	M/s. Murghai Hire Purchase Private Limited	445.	014742	M/s. Varun Agro Appliances Private Limited
415.	014581	M/s. S. Faujdar Singh and Sons Financiers Private Limited	446.	014746	M/s. Malwa Capital Services Private Limited
416.	014597	M/s. Swarn Sukh Hire Purchase Private Limited	447.	014754	M/s. Sanghera Financiers Private Limited
417.	014595	M/s. K.B. Deposits and Advances Private Limited	448.	014760	M/s. Ranjit Hammers Private Limited
418.	014615	M/s. Suvidha Capital Services Private Limited	449.	014763	M/s. Ransun Export Private Limited
419.	014618	M/s. Pillsbury Foods Private Limited	450.	014771	M/s. Poonam Capital Services Private Limited
420.	014622	M/s. Ludhiana Environment Research Centre Private Limited	451.	014772	M/s. Royal Cosmic Enterprises Private Limited
421.	014625	M/s. Sangha and Gill Finance and Investment Private Limited	452.	014775	M/s. Sun Chaser Hosiery Mills Private Limited
422.	022386	M/s. Greenage Farms Private Limited	453.	014785	M/s. Bachan Exports Private Limited
423.	029088	M/s. US Township Developers Private Limited	454.	014795	M/s. Nanaksar Tyres Private Limited
424.	031056	M/s. Bags Financial Services Private Limited	455.	014806	M/s. Kangaro Metaplast Private Limited
425.	008271	M/s. Sharan Sales Private Limited	456.	014808	M/s. Power Sports Private Limited
426.	014626	M/s. Sethi Hire Pruchase Private Limited	457.	014801	M/s. Tuff Polypacks Private Limited
427.	014632	M/s. Banarsi Dairies Private Limited	458.	014814	M/s. Gagan Feed Mills Private Limited
428.	014630	M/s. Tejvir Computel Private Limited	459.	014816	M/s. Multiple Techno Experts Private Limited
429.	014635	M/s. Perfect Agro Mills Private Limited	460.	014825	M/s. Sunaina Exports Private Limited
430.	014643	M/s. Paramdev Finance and Investments Private Limited	461.	014834	M/s. K. B. K. Hire Purchase Private Limited
431.	014644	M/s. Paryas Garments Private Limited	462.	014840	M/s. Bhoday Finance Private Limited
432.	014645	M/s. Harjan Spinning Mills Private Limited	463.	014847	M/s. Shammi Hire Purchase Private Limited
433.	014647	M/s. Tarsem Hire Purchase Private Limited	464.	014852	M/s. Aspen Datamatrix Private Limited
434.	014649	M/s. Nakodar Deposits and Advances Private Limited	465.	014868	M/s. T. F. C. Leasing and Finance Private Limited
435.	014667	M/s. Aamer Holding Private Limited	466.	014877	M/s. Batala Deposits and Advances Private Limited
436.	014682	M/s. Ravison Foods Private Limited	467.	014882	M/s. Doctor Hire Purchase Private Limited
437.	014686	M/s. Arihant Knittings Private Limited	468.	014888	M/s. Goldline Distillers and Brewers Private Limited
438.	014694	M/s. J.S. Advisors and Consultants Private Limited	469.	014885	M/s. Elegant Media Services Private Limited
439.	014696	M/s. GMT Fuel Briquettes Private Limited	470.	014890	M/s. Meridic Agencies Private Limited
			471.	014897	M/s. Kaile Hire Purchase Private Limited
			472.	014920	M/s. Tarneet Leasing Private Limited

1	2	3
473.	014922	M/s. Monfin Investment Private Limited
474.	014923	M/s. VMN Finvest Private Limited
475.	014931	M/s. Jinni Projects Private Limited
476.	014937	M/s. Bhagwati Alloys Private Limited
477.	014941	M/s. Karan Motor Hire Purchase Private Limited
478.	014943	M/s. New Times Media Syndication Private Limited
479.	014944	M/s. Stallion Pharmaceuticals Private Limited
480.	014947	M/s. Astro Business Promoters Private Limited
481.	014957	M/s. Proteus Financial and Management Services Private Limited
482.	014965	M/s. Chauhan Nursing Home Private Limited
483.	014971	M/s. United Funland Private Limited
484.	014973	M/s. Gurdit Financiers Private Limited
485.	014978	M/s. Merry Boards Private Limited
486.	014979	M/s. K. S. Ceilings Private Limited
487.	014975	M/s. Bansal Cement Company Private Limited
488.	014977	M/s. Brags Investments Private Limited
489.	014980	M/s. Anshupati Finance and Leasing Private Limited
490.	014984	M/s. Sherpur Impex Private Limited
491.	014993	M/s. Gurminder Fire Equipments Private Limited
492.	014998	M/s. Mussaraf Steels Private Limited
493.	015017	M/s. Mod Poly Containers Private Limited
494.	015007	M/s. Riverinn Hotels Private Limited
495.	015008	M/s. Fast Forward Information Systems Private Limited
496.	015011	M/s. Unison Construction (India) Limited
497.	015012	M/s. Curio Organics Private Limited
498.	015013	M/s. Rishab Leasing and Finance Private Limited

RAJ SINGH
Registrar of Companies
Punjab & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies

Shillong-793001, the 19th June 2012

No. RoC/SH/560(5)/2012/2101—Notice is hereby given
pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies

Act, 1956 that the name of the following Companies have
this day been struck off from the Registrar and the said
Companies are dissolved :—

Sl. No.	CIN No.	Name of the Company
1.	009040	M/s. Kamaljiyoti Marketing Private Limited
2.	008553	M/s. Rapid Ascent Private Limited
3.	008312	M/s. Royal Constructions & Developers Private Limited
4.	007963	M/s. Datazen Infotech Private Limited

G. C. YADAV
Registrar of Companies
N. E. Region, Shillong

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ponchom Marketing and Consulting Private Limited
Shillong-793001, the 19th June 2012

No. 560(3) MCA/RoC-Shillong/sec 560/2012/00277—
Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section
560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three
months from the date hereof the name of M/s. Ponchom
Marketing and Consulting Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off the register and the
said company will be dissolved.

GULAB CHAND YADAV
Registrar of Companies
Assam, Tripura, Manipur, Nagaland, Meghalaya,
Arunachal Pradesh and Mizoram

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Rahul Teja Finance Limited

Hyderabad-500195, the 8th June 2011

Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Rahul Teja Finance Limited has this day been struck
off the register and the said company is dissolved.

P. C. NANDA KUMAR
Asstt. Registrar of Companies
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Subhodaya Credits and Holdings Private Limited

Hyderabad-500195, the 8th June 2011

Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Subhodaya Credits and Holdings Private Limited has
this day been struck off the register and the said company
is dissolved.

P. C. NANDA KUMAR
Asstt. Registrar of Companies
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Neelambari Hotels Private Limited

Hyderabad-500195, the 8th June 2011

Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Neelambari Hotels Private Limited has this day been
struck off the register and the said company is dissolved.

P. C. NANDA KUMAR
Asstt. Registrar of Companies
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Chitturi Finance and Investments Limited

Hyderabad-500195, the 8th June 2011

Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Chitturi Finance and Investments Limited has this day
been struck off the register and the said company is
dissolved.

P. C. NANDA KUMAR
Asstt. Registrar of Companies
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. R. G. Plastics and Packing Private Limited

Hyderabad-500195, the 8th June 2011

Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. R. G. Plastics and Packing Private Limited has this day
been struck off the register and the said company is
dissolved.

P. C. NANDA KUMAR
Asstt. Registrar of Companies
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Anarkali Chit Fund Private Limited

Hyderabad-500195, the 8th June 2011

Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Anarkali Chit Fund Private Limited has this day been
struck off the register and the said company is dissolved.

P. C. NANDA KUMAR
Asstt. Registrar of Companies
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Lohia Plastics Private Limited

Hyderabad-500195, the 8th June 2011

Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of

M/s. Lohia Plastics Private Limited has this day been struck
off the register and the said company is dissolved.

P. C. NANDA KUMAR
Asstt. Registrar of Companies
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Deccan Multi Sourcing Private Limited

Hyderabad-500195, the 8th June 2011

Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Deccan Multi Sourcing Private Limited has this day
been struck off the register and the said company is
dissolved.

P. C. NANDA KUMAR
Asstt. Registrar of Companies
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Fortuna Management Consultants Private Limited

Hyderabad-500195, the 21st May 2011

Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Fortuna Management Consultants Private Limited has
this day been struck off the register and the said company
is dissolved.

P. C. NANDA KUMAR
Asstt. Registrar of Companies
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Everest Remedies Private Limited

Hyderabad-500195, the 21st May 2011

Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Everest Remedies Private Limited has this day been
struck off the register and the said company is dissolved.

P. C. NANDA KUMAR
Asstt. Registrar of Companies
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Hillparadise Developers Private Limited

Hyderabad-500195, the 21st May 2011

Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of
M/s. Hillparadise Developers Private Limited has this day
been struck off the register and the said company is
dissolved.

P. C. NANDA KUMAR
Asstt. Registrar of Companies
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Prasad Drugs Private Limited

Hyderabad-500195, the 21st May 2011

Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Prasad Drugs Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

P. C. NANDA KUMAR
Asstt. Registrar of Companies
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sri Maruthi Raghavendra Metals Private Limited

Hyderabad-500195, the 21st May 2011

Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sri Maruthi Raghavendra Metals Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

P. C. NANDA KUMAR
Asstt. Registrar of Companies
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s. Sreevaasa Chit Fund Private Limited

Hyderabad-500195, the 21st May 2011

Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sreevaasa Chit Fund Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

P. C. NANDA KUMAR
Asstt. Registrar of Companies
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s. Kirankrishna Chits and Finance Private Limited

Hyderabad-500195, the 21st May 2011

Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Kirankrishna Chits and Finance Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

P. C. NANDA KUMAR
Asstt. Registrar of Companies
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s. Sry Apparels Private Limited

Hyderabad-500195, the 21st May 2011

Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of

M/s. Sry Apparels Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

P. C. NANDA KUMAR
Asstt. Registrar of Companies
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s. Swastik Sri Sai Chits and Finance Private Limited

Hyderabad-500195, the 21st May 2011

Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Swastik Sri Sai Chits and Finance Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

P. C. NANDA KUMAR
Asstt. Registrar of Companies
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s. Futura Manufacturers and Markets Private Limited

Hyderabad-500195, the 21st May 2011

Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Futura Manufacturers and Markets Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

P. C. NANDA KUMAR
Asstt. Registrar of Companies
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s. Sampre Candy Company Private Limited

Hyderabad-500195, the 21st May 2011

Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sampre Candy Company Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

P. C. NANDA KUMAR
Asstt. Registrar of Companies
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s. Sundial Holdings Private Limited

Hyderabad-500195, the 21st May 2011

Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Sundial Holdings Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

P. C. NANDA KUMAR
Asstt. Registrar of Companies
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s. Manz Trading Private Limited

Hyderabad-500195, the 21st May 2011

Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Manz Trading Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

P. C. NANDA KUMAR
Asstt. Registrar of Companies
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s. Challa Media Limited

Hyderabad-500195, the 21st May 2011

Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Challa Media Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

P. C. NANDA KUMAR
Asstt. Registrar of Companies
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s. Kims Greenleaf Healthcare Services Private Limited

Hyderabad-500195, the 21st May 2011

Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Kims Greenleaf Healthcare Services Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

P. C. NANDA KUMAR
Asstt. Registrar of Companies
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s. Ved Iron and Steel Private Limited

Hyderabad-500195, the 21st May 2011

Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Ved Iron and Steel Private Limited has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

P. C. NANDA KUMAR
Asstt. Registrar of Companies
Andhra Pradesh

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies

Hyderabad, the 19th June 2012

No. RoC/Delhi/560(5)/EES-2012/VSJ/1-6—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of the following Companies have this day been struck off from the Register and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	CIN No.	Name of the Company
1.	042432	M/s. Air Swift Cargo Airlines Private Limited
2.	015696	M/s. Rainbow Financial Services Private Limited
3.	051779	M/s. Jaishika Estates Private Limited
4.	019596	M/s. Bhargavi Housing and Finance Limited
5.	051821	M/s. Alkani Telefilms Private Limited
6.	023405	M/s. Wall Street Securities Limited

V. SANTOSHI JAGIRDAR
Asstt. Registrar of Companies
Andhra Pradesh

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2012
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2012